



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31—अप्रैल 6, 2012 (चैत्र 11, 1934)
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31—APRIL 6, 2012 (CHAITRA 11, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2012

एकीकृत रक्षा मुख्यालय (थल सेना)

सैन्य अभियन्ता सेवायें

सं. 115, दिनांक 10 फरवरी 2012—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्शाये गये पदों पर सामने लिखी गई तिथियों से सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नाम, एमईएस सं., पद तथा तिथि

बोदुपल्ली मलिकाउर्जुना (एमईएस-170446), ईई, 30 मई 2011 (पूर्वाह्न)

किसले किशोर (एनवाईए), ईईई (बी/आर), 12 मई 2011 (पूर्वाह्न)

सुरीन्द्र गुप्ता (एमईएस-509013), ईई (क्यूएस एण्ड सी), 14 नवम्बर 2011 (पूर्वाह्न)

के पी शानवास (एमईएस-141995), ईई (क्यूएस एण्ड सी), 11 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

देवाशीष चक्रबोर्ती (एमईएस-203289), ईई (क्यूएस एण्ड सी), 12 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

मनजीत सिंह (एमईएस-314174), ईई (क्यूएस एण्ड सी), 14 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

बी ए गंगाधरा (एमईएस-198398), ईई (क्यूएस एण्ड सी), 12 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

मनीश कुमार मित्तल (एमईएस-507095), ईई (क्यूएस एण्ड सी), 11 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

सुरेश कुमार (एमईएस-480081), ईई (क्यूएस एण्ड सी), 11 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

के सुरेशान (एमईएस-149856), ईई (क्यूएस एण्ड सी), 11 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

बिपलब कुमार वैद्य (एमईएस-238822), ईई (क्यूएस एण्ड सी), 14 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

शीबा जाकीब (एमईएस-125287), ईई (क्यूएस एण्ड सी), 11 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

मोहिन्द्र बीर बिक्रम (एमईएस-507133), आई (क्यूएस एण्ड सी),
11 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

विमल
अवर सचिव

सं. 116, दिनांक 13 फरवरी 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

डोगरा रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कश्मीर सिंह (जेसी-519882के), 01 दिसम्बर 2010

सूबेदार कुमार चन्द, शौर्य चक्र (जेसी-520061एफ), 15 जून 2011+
+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2011 से)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बोध राज (जेसी-520773के), 11 मई 2011+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2011 से)

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-520535एक्स), 20 मई 2011+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2011 से)

नायब सूबेदार निरातक सिंह (जेसी-520536ए), 20 मई 2011+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
02 मई 2011 से)

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-520766एन), 31 मई 2011+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
05 मई 2011 से)

नायब सूबेदार दिलीप सिंह (जेसी-520537एच), 30 मई 2011+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 मई 2011 से)

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-520978वाई), 31 मई 2011+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
21 मई 2011 से)

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह (जेसी-520542एन), 30 मई 2011+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
27 मई 2011 से)

नायब सूबेदार राजीव पटियाल (जेसी-520781एच), 18 जून 2011+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2011 से)

नायब सूबेदार बसंत कुमार (जेसी-520782एल), 18 जून 2011+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2011 से)

नायब सूबेदार जगदेव राज सिंह (जेसी-520793एक्स), 18 जून 2011+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2011 से)

सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार/लिपिक रोहतास कुमार निम्बल (जेसी-520030एफ), 01 मई
2011

सूबेदार/लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार/लिपिक गज राज सिंह (जेसी-520443एल), 02 मई
2011+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2011 से)

नायब सूबेदार/लिपिक विजय कुमार शर्मा (जेसी-520487एच),
29 अप्रैल 2011+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2011 से)

नायब सूबेदार/लिपिक ज्योति बोस (जेसी-520558वाई), 01 मई 2011

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-520062के), 02 मई 2011+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2011 से)

सूबेदार वीर सिंह (जेसी-519852एम), 02 मई 2011+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2011 से)

सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-520031के), 09 मई 2011+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2011 से)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शाम लाल (जेसी-520903एफ), 16 अगस्त 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2010 से)

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-520777ए), 12 मार्च 2011+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010 से)

नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-520931एन), 11 अक्टूबर 2010+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-520720एल), 06 नवम्बर 2010+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-520697एच), 02 मार्च 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार धर्म चन्द (जेसी-520771वाई), 08 मार्च 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 नवम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार सुरम सिंह (जेसी-520888एक्स), 01 मई 2011+
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार कमल सेन (जेसी-520727पी), 07 अप्रैल 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार कुलदीप राज (जेसी-520647एक्स), 07 मार्च 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 दिसम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार थलिया राम (जेसी-520753डब्ल्यू), 07 मार्च 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से)

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-520785वाई), 01 मार्च 2011+
 +(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से)

नायब सूबेदार जनक राज (जेसी-520788एम), 24 फरवरी 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से)

नायब सूबेदार कुलदीप राज शर्मा (जेसी-520728एक्स), 07 अप्रैल 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जनवरी 2011 से)

नायब सूबेदार यश पाल (जेसी-520701ए), 18 अप्रैल 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 फरवरी 2011 से)

नायब सूबेदार अनुप सिंह (जेसी-520715ए), 05 मई 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 फरवरी 2011 से)

नायब सूबेदार बिशन सिंह (जेसी-520969एक्स), 06 अप्रैल 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से)

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-521008एच), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-521017के), 09 अप्रैल 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से)

नायब सूबेदार अश्विनी कुमार (जेसी-520743एम), 20 मई 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र पाल (जेसी-520744पी), 02 मई 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से)

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार/लिपिक रविन्द्र कुमार (जेसी-520485एक्स), 01 अप्रैल 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से)

नायब सूबेदार/लिपिक बलिन्द्र भूषण मिश्रा (जेसी-520604एच), 01 मई 2011

सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

नायब सूबेदार/संगीतकार रूप लाल (जेसी-520843एक्स), 01 मार्च 2011+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मार्च 2011 से)

जाट रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अतर सिंह (जेसी-490040एन), 16 जुलाई 2009*
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र गढ़वाल (जेसी-490183एन), 01 अगस्त 2009*
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-489885ए), 01 नवम्बर 2008*
 *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

- नायब सूबेदार काना राम (जेसी-490082ए), 23 जुलाई 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार उमेश सिंह (जेसी-490148एल), 19 अक्टूबर 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-489701डब्ल्यू), 12 जनवरी 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-489922एच), 01 फरवरी 2009
- नायब सूबेदार भोमाराम चौधरी (जेसी-489945के), 05 अप्रैल 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार जगूराम झाझरिया (जेसी-489950पी), 10 मार्च 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-489976के), 08 फरवरी 2009
- नायब सूबेदार सुन्दर पाल (जेसी-489939डब्ल्यू), 03 मार्च 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार यशपाल सिंह (जेसी-489973डब्ल्यू), 01 मार्च 2009
- नायब सूबेदार रामपाल (जेसी-489974वाई), 01 अप्रैल 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-490063वाई), 02 मार्च 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह, सेना मेडल (जेसी-489946एम), 02 मार्च 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार बीर सिंह (जेसी-489977एम), 17 मार्च 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार सुरेश कुमार रेड्डू (जेसी-490047एक्स), 25 जून 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार तेजवीर सिंह (जेसी-490048ए), 17 जुलाई 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार इन्द्रपाल सिंह (जेसी-490058के), 24 अगस्त 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार योगेन्द्र सिंह (जेसी-490059एम), 27 जनवरी 2010 *
- *(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार मनवीर (जेसी-490155एफ), 15 अक्टूबर 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार जसवीर सिंह (जेसी-489960वाई), 20 अप्रैल 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 मार्च 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार रामनिवास (जेसी-489891एन), 10 अगस्त 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मार्च 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-489902पी), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार सोनी कुमार (जेसी-489932एम), 14 अप्रैल 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार हरफूल जाट (जेसी-489934एक्स), 18 अप्रैल 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जेसी-489959के), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-490064एक्स), 29 मई 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह गवर (जेसी-490065ए), 08 जुलाई 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार जवाहर राम पाटीदर (जेसी-490106वाई), 11 जुलाई 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार उम्मेद सिंह (जेसी-490156के), 31 दिसम्बर 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार जुगवीर सिंह (जेसी-490142के), 11 जुलाई 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धर्मवीर (जेसी-490070एल), 20 अगस्त 2009 *

*(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धर्मबीर (जेसी-489981पी), 01 जून 2009 *

*(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार भागीरथमल (जेसी-489983ए), 05 मई 2009 *

*(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-490110एफ), 10 मई 2009

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-489988वाई), 23 जुलाई 2009 *

*(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-490013के), 04 मार्च 2011 *

*(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जून 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

नायब सूबेदार (संगीतकार) चन्दन सिंह राणा (जेसी-489970एच), 06 फरवरी 2009 *

*[सूबेदार (संगीतकार) रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी]

नियमित सेना

इंफैन्ट्री-जम्मू और कश्मीर लाईट इंफैन्ट्री

सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार जीत कुमार (जेसी-592969एन), 16 मई 2011

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 मई 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार परशोत्तम सिंह (जेसी-592778वाई), 04 जून 2011

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 मई 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार अब्दुल घफूर (जेसी-592905एच), 22 जून 2011

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 जून 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार मेजर (लिपिक) की पदोन्नति के लिए

सूबेदार (लिपिक) मोहम्मद इक़बाल (जेसी-592838एच), 02 मई 2011

[सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में 01 मई 2011 से वरिष्ठता दी जाती है]

सूबेदार (लिपिक) की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार (लिपिक) जसविंदर सिंह (जेसी-593247एन), 01 अप्रैल 2011

[सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 अप्रैल 2011 से वरिष्ठता दी जाती है]

9 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार ओम बहादुर खान (जेसी-629706पी), 02 फरवरी 2011/ 01 जनवरी 2011 *

सूबेदार रिशी राम बसनेत (जेसी-629744एल), 01 फरवरी 2011

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार इन्द्रा कुमार थापा (जेसी-629852पी), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार पदम प्रताप जी सी (जेसी-629860एन), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार दीपक बहादुर क्षेत्री (जेसी-629865एम), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार धन बहादुर खत्री (जेसी-629869एच), 09 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010 *

नायब सूबेदार मुक्ती बहादुर के सी (जेसी-629884एक्स), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार टेक बहादुर थापा (जेसी-629787ए), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार खैम बहादुर खड्का (जेसी-629788एच), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार बिष्णु प्रसाद क्षेत्री (जेसी-629844डब्ल्यू), 06 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010 *

नायब सूबेदार चित्रा बहादुर मल्ला (जेसी-629888एन), 03 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

नायब सूबेदार देव बहादुर क्षेत्री (जेसी-629891एन), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार चन्द्रा बहादुर शाही (जेसी-629778वाई), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार जग बहादुर थापा (जेसी-629792एल), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार हेम चन्द्रा कौड़ाला (जेसी-629793एन), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह थापा (जेसी-629794डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार गोबिंद बहादुर खत्री (जेसी-629798एम), 10 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011 *

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर शाही (जेसी-629845वाई), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार रमेश रावत (जेसी-629810एच), 08 मार्च 2011/ 20 फरवरी 2011 *

नायब सूबेदार सूर्या बहादुर के सी (जेसी-629895पी), 01 अप्रैल 2011

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

पंजाब रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर (लिपिक) रैंक में

सूबेदार/लिपिक सुभाष चन्द्र वैदया (जेसी-429800पी), 01 मई 2011

सूबेदार (लिपिक) राम प्रसाद शर्मा (जेसी-429801एक्स), 01 मई 2011

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) रनजीत सिंह (जेसी-430255एच), 01 मई 2011

नायब सूबेदार (लिपिक) सतपाल सिंह (जेसी-430254ए), 01 मई 2011

नायब सूबेदार (लिपिक) शंकर सिंह (जेसी-430257एन), 01 मई 2011

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-429099एक्स), 01 मार्च 2011

सूबेदार करनेल सिंह (जेसी-428991एच), 01 अप्रैल 2011

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कुलवंत सिंह (जेसी-430139ए), 11 मई 2010

नायब सूबेदार रोमेश कुमार (जेसी-430388वाई), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार मनोहर लाल (जेसी-430466एल), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह सरोन (जेसी-430136एम), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-430160एच), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार विक्रम सिंह राणा (जेसी-430479एच), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार जय देव (जेसी-430499डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार दारा सिंह (जेसी-430536वाई), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार भुपिन्दर सिंह भ्रम (जेसी-430313एफ), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-430392एफ), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-430476पी), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जेसी-430030ए), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह (जेसी-430335ए), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार रविन्दर पाल सिंह (जेसी-430343वाई), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार तारा सिंह (जेसी-430319एच), 01 मई 2010

नायब सूबेदार ईकबाल सिंह लखणपाल (जेसी-429985एफ), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जेसी-430270एक्स), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार कुलदीप चन्द (जेसी-430405एन), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-430510के), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार दिवान चन्द (जेसी-430430एम), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार मुखिया सिंह (जेसी-430245वाई), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-430514ए), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह नागराज (जेसी-430327एफ), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार भागु राम जाट (जेसी-430483एल), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार रमेश पाल सिंह (जेसी-430579एन), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार सुनिल कुमार कौशल (जेसी-430344एफ), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-430461एम), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार लोचन सिंह (जेसी-430087पी), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार मनजिन्दर सिंह (जेसी-430238एच), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार केवल कुमार (जेसी-430431पी), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-430190ए), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार देशा सिंह (जेसी-430191एच), 24 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-430345के), 20 अप्रैल 2011

3 जी आर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पहल सिंह थापा (जेसी-607750वाई), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार मचेन्द्रा तमोंग (जेसी-607758एल), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार लाल बहादुर गुरूंग (जेसी-607759एन), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार चनबीर रोका (जेसी-607760एच), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार टीका बहादुर थापा (जेसी-607766के), 04 दिसम्बर 2010/01 नवम्बर 2010 *

नायब सूबेदार भोज बहादुर थापा (जेसी-607702वाई), 07 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 *

नायब सूबेदार तेज बहादुर थापा (जेसी-607745एन), 10 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 *

नायब सूबेदार राम नरेश (जेसी-607749के), 23 फरवरी 2011/01 जनवरी 2011 *

नायब सूबेदार राज कुमार श्रेष्ठ (जेसी-607761एल), 01 जनवरी 2011

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

नायब सूबेदार निरपा बहादुर बलाल (जेसी-607765एफ), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार जित बहादुर गुरूंग (जेसी-607772एक्स), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर गुरूंग (जेसी-607767एम), 14 फरवरी 2011/28 जनवरी 2011 *

नायब सूबेदार हीरा सिंह थापा (जेसी-607747वाई), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार उदय बहादुर गुरूंग (जेसी-607773ए), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार तुल बहादुर थापा (जेसी-607774एच), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार विमल कुमार (जेसी-607703एफ), 16 मार्च 2011/01 मार्च 2011 *

नायब सूबेदार धन बहादुर मगर (जेसी-607768पी), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (लिपिक) धन बहादुर थापा (जेसी-607769एक्स), 01 मार्च 2011

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

नायब सूबेदार देव बहादुर थापा (जेसी-607777डब्ल्यू), 07 मार्च 2011/01 मार्च 2011 *

नायब सूबेदार गम बहादुर गुरूंग (जेसी-607781वाई), 05 मार्च 2011/01 मार्च 2011 *

नायब सूबेदार ओम बहादुर (जेसी-607785पी), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार रत्ना बहादुर पुन (जेसी-607786एक्स), 05 मार्च 2011/01 मार्च 2011 *

नायब सूबेदार ध्रुव बहादुर गुरूंग (जेसी-607788एच), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार पदम बहादुर थापा (जेसी-607789एल), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार टेक बहादुर थापा (जेसी-607704के), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार दल बहादुर थापा (जेसी-607705एम), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार मोहन बहादुर गुरूंग (जेसी-607782एफ), 05 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

नायब सूबेदार गोपिल बहादुर थापा (जेसी-607762एन), 06 दिसम्बर 2010/01 नवम्बर 2010 *

नायब सूबेदार राम बहादुर थापा (जेसी-607763डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर गुरूंग (जेसी-607681एन), 02 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010 *

नायब सूबेदार रामजी श्रेष्ठ (जेसी-607684एफ), 02 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010 *

नायब सूबेदार रिम बहादुर थापा (जेसी-607693एच), 05 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010 *

नायब सूबेदार गनेश पुन (जेसी-607701डब्ल्यू), 02 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010 *

नायब सूबेदार ईश्वर थापा (जेसी-607720एफ), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार बीर बहादुर राना (जेसी-607743एच), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार विष्णु बहादुर राना (जेसी-607744एल), 01 दिसम्बर 2010

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रत्नपाल सिंह (जेसी-498953के), 01 अप्रैल 2011

सूबेदार बलबीर सिंह, शौर्य चक्र (जेसी-499041ए), 01 मई 2011

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-499777के), 13 अप्रैल 2011
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011)

नायब सूबेदार मंजीत सिंह (जेसी-499705ए), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार भरपुर सिंह (जेसी-499710एल), 03 अप्रैल 2011
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011)

नायब सूबेदार सुखविंदर सिंह (जेसी-499841डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) रमा कांत रथ (जेसी-499760डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (लिपिक) दुर्गा प्रसाद सिंह (जेसी-499763के), 06 अप्रैल 2011

(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011)

नायब सूबेदार (लिपिक) पाटिल सम्पतराव आनंदराव (जेसी-499793एफ), 06 अप्रैल 2011

(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार देविन्दर सिंह (जेसी-499824डब्ल्यू), 20 अप्रैल 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011)

नायब सूबेदार हरविन्दर सिंह (जेसी-499654एक्स), 01 मई 2011

नायब सूबेदार बोहर सिंह (जेसी-499943एम), 01 जून 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मई 2011)

सूबेदार धर्म शिक्षक के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) परदीप सिंह (जेसी-498719एन), 30 अप्रैल 2011

(सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011)

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) कशमीर सिंह (जेसी-498720एच), 06 मई 2011

(सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011)

पैराशूट रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार डिग राम (जेसी-412565एल), 01 जून 2010

सूबेदार उत्तम जानबा टीका (जेसी-412555एफ), 09 अगस्त 2010

सूबेदार संजय पाटील (जेसी-412580ए), 09 अक्टूबर 2010

सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-412563ए), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार रंजीत सिंह राठौड (जेसी-412779एफ), 06 अक्टूबर 2010

सूबेदार रोशन लाल (जेसी-412688एक्स), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार ज्ञान चन्द (जेसी-412721के), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार प्यार सिंह (जेसी-412775एल), 01 दिसम्बर 2010

सूबेदार राम किशन (जेसी-412707एक्स), 03 दिसम्बर 2010

सूबेदार ज्ञान सिंह, सेना मेडल (जेसी-412392वाई), 02 दिसम्बर 2010

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मेहर सिंह (जेसी-413209एक्स), 01 मई 2010

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-413244ए), 01 मई 2010

नायब सूबेदार रजेन्द्र कुमार (जेसी-413037एन), 01 जून 2010

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-413054एन), 01 जून 2010

नायब सूबेदार रतन लाल गुर्जर (जेसी-413115ए), 01 जून 2010

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-413120एल), 01 जून 2010

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-413201एम), 01 जून 2010

नायब सूबेदार स्वतंत्र सिंह (जेसी-413073वाई), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार खुशी राम (जेसी-413080पी), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार तोडकर रविन्द्र शंकर राव (जेसी-413230ए), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार प्रधान नामदेव घिनाजी, सेना मेडल (जेसी-412920एक्स), 12 जुलाई 2010

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-412952ए), 12 जुलाई 2010

नायब सूबेदार दान सिंह, सीपाल, सेना मेडल (जेसी-412953एच), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार बची सिंह बिष्ट (जेसी-413202डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार चन्द्र सिंह (जेसी-413203डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार शिव कुमार सिंह (जेसी-413148एल), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार पूर्णराम गुंजियाल (जेसी-413155एफ), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-413165एल), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार बेसरी राम (जेसी-413245एच), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार भुवन गारकोटी (जेसी-413229एल), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार प्यार सिंह (जेसी-413255एफ), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार अभिमन्यु सिंह (जेसी-413277एल), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार विनोद कुमार शर्मा (जेसी-413278एन), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार नरेश सिंह (जेसी-413247एन), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सेवक सिंह (जेसी-413258ए), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार यशपाल (जेसी-413185वाई), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार खीम चन्द, सेना मेडल (जेसी-413257एक्स), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार भरत भूषण शर्मा (जेसी-413187के), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार नारायण सिंह चौहान (जेसी-413166एन), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार सोना राम गोदारा (जेसी-413260एक्स), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार हरी सिंह (जेसी-413261ए), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार सत्य प्रसाद नावानी (जेसी-413262एच), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार भरत सिंह छेत्री (जेसी-413295एन), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार ऐति बहादुर राय (जेसी-413140एल), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार सतिश कुमार (जेसी-413151एल), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार रमेश कुमार यादव (जेसी-413157डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार दिलीप कुमार वर्मा (जेसी-413259एच), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार दारा सिंह धामा (जेसी-413167डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार राउत जगदेव विश्राम, सेना मेडल (जेसी-413117एल), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार पवन सिंह (जेसी-413379एफ), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार दया किशन जोशी, सेना मेडल (जेसी-413380डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार सुरजित सिंह (जेसी-413085एन), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार युद्धबीर सिंह (जेसी-413086डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह रावत (जेसी-413093एम), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार मन्जीत सिंह (जेसी-413091एफ), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार संदेश कुमार (जेसी-413090वाई), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार बलविन्द्र सिंह (जेसी-413098एल), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-413190के), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार चनन मल (जेसी-413222एफ), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार सुखबीर सिंह, सेना मेडल (जेसी-413156के), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-413082ए), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार कल्लू सिंह गुर्जर (जेसी-413142के), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार लोले गुलाब राव बबन राव (जेसी-413152एम), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार सुगेन्द्र सिंह (जेसी-413282ए), 06 फरवरी 2011

नायब सूबेदार अनूप सिंह (जेसी-413263एल), 06 फरवरी 2011

नायब सूबेदार धन सिंह (जेसी-413383के), 13 फरवरी 2011

नायब सूबेदार चन्द्र शेखर चौहान (जेसी-413382एफ), 13 फरवरी 2011

नायब सूबेदार गगन सिंह (जेसी-413394डब्ल्यू), 13 फरवरी 2011

नायब सूबेदार सतविन्द्र सिंह (जेसी-413316वाई), 13 फरवरी 2011

नायब सूबेदार उपेन्द्र सिंह (जेसी-413304के), 13 फरवरी 2011

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-413211पी), 16 फरवरी 2011

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार हलिन्द्र सिंह (जेसी-413168वाई), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार बाबू एम (जेसी-413183एन), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार जलपती श्रीनिवासुलू (जेसी-413192पी), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-413191एम), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार सतीश चेङ्गे (जेसी-413196एल), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार रामबीर सिंह (जेसी-413221वाई), 01 अप्रैल 2011
 नायब सूबेदार कपिल देव पान्डे (जेसी-413226एक्स), 01 मई 2011

लद्दाख स्काऊट्स

सूबेदार मेजर (जीडी) के पद पर

सूबेदार नावांग स्तोबदन (जेसी-588103एफ), 01 अप्रैल 2008
 सूबेदार छेरिंग फुंचोक (जेसी-588107एक्स), 01 जुलाई 2008
 सूबेदार लोब्जंग नेतक (जेसी-588128एन), 01 जुलाई 2008
 सूबेदार फुंचोक नाम्गाल (जेसी-588104के), 01 नवम्बर 2008
 सूबेदार लोब्जंग छेरिंग (जेसी-588132डब्ल्यू), 06 नवम्बर 2008/
 01 नवम्बर 2008*
 सूबेदार टाशि दोर्जे (जेसी-588176एन), 01 नवम्बर 2008
 सूबेदार सोनम रिग्ज़िन (जेसी-588134एफ), 01 अक्टूबर 2009
 सूबेदार छेतन नम्गाल (जेसी-588216के), 01 दिसम्बर 2009
 सूबेदार सोनम दोर्जे (जेसी-588100एन), 01 मई 2010
 सूबेदार छेरिंग अंगदुस (जेसी-588124एक्स), 16 जून 2010/01 जून 2010*
 सूबेदार नारायण चंद (जेसी-588179एफ), 01 जून 2010
 सूबेदार टाशि पल्जोर (जेसी-588143एच), 04 सितम्बर 2010/
 01 सितम्बर 2010*
 सूबेदार लोब्जंग गुर्मित (जेसी-588137पी), 12 सितम्बर 2010/
 01 सितम्बर 2010*
 सूबेदार छेवांग मुटुप (जेसी-588171पी), 04 अक्टूबर 2010/
 01 अक्टूबर 2010*
 सूबेदार सोनम दोर्जे (जेसी-588175एल), 16 नवम्बर 2010/
 01 नवम्बर 2010*
 सूबेदार सोनम टुंडुप (जेसी-588120एफ), 18 जनवरी 2011/
 01 दिसम्बर 2010*
 सूबेदार छेरिंग नुर्बु (जेसी-588109एच), 10 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011*

सूबेदार मेजर क्लर्क (एसडी) के पद पर

सूबेदार (क्लर्क) सत पाल (जेसी-588065डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार (जीडी) के पद पर

नायब सूबेदार टुंडुप वंगिअल (जेसी-588435एल), 02 जनवरी 2011/01 मार्च 2010*

नायब सूबेदार छेरिंग अंगचोक (जेसी-588392एफ), 05 जून 2010/
 01 जून 2010*

नायब सूबेदार थुक्जे गेलिक (जेसी-588378पी), 14 जून 2010/
 01 जून 2010*

नायब सूबेदार फुंचोक अंगचोक (जेसी-588400पी), 13 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार स्कर्मा चोअस (जेसी-588403एच), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार नावांग छेरिंग (जेसी-588316पी), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार टुंडुप दोर्जय (जेसी-588390डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार रिग्ज़िन अंगचोक (जेसी-588397ए), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-588395पी), 08 नवम्बर 2010/
 01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार मोहम्मद युसुफ (जेसी-588408एफ), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सेरिंग सम्फेल (जेसी-588418एल), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार टुंडुप नग्मिअल (जेसी-588427एम), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सेरिंग अंगदुस (जेसी-588401एक्स), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार स्तंज़िन टुंडुप (जेसी-588430एम), 02 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

नायब सूबेदार टाशि चफैल (जेसी-588410वाई), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार राजिंदर पाल (जेसी-588446एक्स), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार नावांग छेरिंग (जेसी-588450ए), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार सोनम रिग्ज़िन (जेसी-588416ए), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार टाशि मुटुप (जेसी-588423डब्ल्यू), 04 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011*

नायब सूबेदार दोर्जय स्तंज़िन (जेसी-588451एच), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार पद्मा दोर्जे (जेसी-588411एफ), 14 फरवरी 2011/
 01 फरवरी 2011*

नायब सूबेदार सोनम अंगचोक (जेसी-588455वाई), 03 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011*

नायब सूबेदार टी सेरिंग गोंबो (जेसी-588437डब्ल्यू), 11 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011*

नायब सूबेदार कुंगा सम्फिअल (जेसी-588438वाई), 02 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011*

सूबेदार क्लर्क (एसडी) के पद पर	हवलदार थिनलेस टी सेवांग (सं. 9923813एम अब जेसी-588555के), 01 अक्टूबर 2010
नायब सूबेदार/क्लर्क राम कुमार (जेसी-588361एफ), 01 सितम्बर 2010	हवलदार शिव लाल (सं. 9923848एच अब जेसी-588556एम), 01 अक्टूबर 2010
नायब सूबेदार/क्लर्क स्कर्मा पलजोर (जेसी-588368एल), 01 नवम्बर 2010	हवलदार सेरिंग नमिअल (सं. 9923747पी अब जेसी-588557पी), 01 अक्टूबर 2010
नायब सूबेदार/क्लर्क स्कर्मा मोटुप (जेसी-588370एच), 01 नवम्बर 2010	हवलदार नवांग योंतन (सं. 9923963एच अब जेसी-588558एक्स), 01 अक्टूबर 2010
नायब सूबेदार लम्चुंग सेरिंग (जेसी-588381पी), 01 मार्च 2011	हवलदार नवांग योंतन (सं. 9923677एफ अब जेसी-588565एन), 15 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010*
नायब सूबेदार (जीडी) के पद पर	हवलदार रिचन ज़ांगबो (सं. 9923776के अब जेसी-588570वाई), 01 नवम्बर 2010
हवलदार फुंचोक टशि (सं. 9923417डब्ल्यू अब जेसी-588531ए), 30 मार्च 2010/01 मार्च 2010*	हवलदार माधो राम (सं. 9923833ए अब जेसी-588566डब्ल्यू), 04 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*
सेतन नमिअल (सं. 9923890एफ अब जेसी-588538के), 09 मार्च 2010/06 मार्च 2010*	हवलदार सेरिंग वांग्दुस (सं. 9923797ए अब जेसी-588567वाई), 01 दिसम्बर 2010
हवलदार दिनेश कुमार (सं. 9923668ए अब जेसी-588539एम), 06 अप्रैल 2010/10 मार्च 2010*	हवलदार पुंचोक टुंडुप (सं. 9923870एन अब जेसी-588568एफ), 01 दिसम्बर 2010
हवलदार सेरिंग मोरुप (सं. 9923516वाई अब जेसी-588540एफ), 31 मार्च 2010	हवलदार नवांग लुंग्तोक (सं. 9924132डब्ल्यू अब जेसी-588569के), 02 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*
हवलदार मोहम्मद अली (सं. 9923767एच अब जेसी-588541के), 01 अप्रैल 2010	हवलदार राम लाल (सं. 9923845पी अब जेसी-588571एफ), 02 फरवरी 2011/01 दिसम्बर 2010*
हवलदार स्पंभा सेरिंग (सं. 9923965एन अब जेसी-588542एम), 01 अप्रैल 2010	हवलदार सोनम चेस्पल (सं. 9923914ए अब जेसी-588572के), 01 जनवरी 2011
हवलदार ग्याल्त्सन निमा (सं. 9923723एल अब जेसी-588543एल), 07 मई 2010/01 मई 2010*	हवलदार सोनम नोर्बू (सं. 9923865एच अब जेसी-588573एम), 01 जनवरी 2011
हवलदार मेहदी खान (सं. 9923812के अब जेसी-588544एक्स), 10 मई 2010/01 मई 2010*	हवलदार रिगिज़न ओत्सल (सं. 9923940एफ अब जेसी-588574पी), 01 जनवरी 2011
हवलदार सेतन फोंसोग (सं. 9923688एन अब जेसी-588545ए), 01 जून 2010	हवलदार थुगजय नमिअल (सं. 9923978एल अब जेसी-588575एक्स), 08 मार्च 2011/01 जनवरी 2011*
हवलदार परम चंद (सं. 9923844एम अब जेसी-588546एच), 14 जून 2010/01 जून 2010*	हवलदार मोहम्मद दीन (सं. 9924168पी अब जेसी-588576ए), 01 जनवरी 2011
हवलदार कुंजंग थिनलेस (सं. 9923505एम अब जेसी-588547एल), 03 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*	हवलदार सेवांग रिगिज़न (सं. 9924137पी अब जेसी-588577एच), 04 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011*
हवलदार सेरिंग अंग्चोक (सं. 9923985एफ अब जेसी-588548एन), 01 अगस्त 2010	हवलदार सेवांग नुर्बु (सं. 9924359के अब जेसी-588578एल), 04 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011*
हवलदार प्रेम जीत (सं. 9923622एक्स अब जेसी-588551एन), 01 सितम्बर 2010	हवलदार स्तंज़िन रिचन (सं. 9924545ए अब जेसी-588579एन), 01 फरवरी 2011/16 जनवरी 2011*
हवलदार रिगिज़न र्गिअस, एस एम (सं. 9923719एच अब जेसी-588552डब्ल्यू), 10 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*	हवलदार संगय पुंचोक (सं. 9923868डब्ल्यू अब जेसी-588580एच), 01 फरवरी 2011
हवलदार टशि दोर्जे (सं. 9923919वाई अब जेसी-588553वाई), 06 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*	
हवलदार नमिअल दोर्जय (सं. 9923647के अब जेसी-588554एफ), 08 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*	

हवलदार कुंजंग नमिअल (सं. 9923926पी अब जेसी-588581एल),
02 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011 *

हवलदार नवांग सम्तन (सं. 9923886वाई अब जेसी-588582एन),
02 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011 *

हवलदार कुंजंग दोर्जेय (सं. 9924289डब्ल्यू अब जेसी-588583डब्ल्यू),
03 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011 *

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के पद पर

हवलदार (क्लर्क) मिनाकेतन चंदा (सं. 13618209एल अब जेसी-588550एल), 01 सितम्बर 2010

हवलदार (क्लर्क) शिव कुमार सिंह (सं. 9923951एन अब जेसी-588559ए), 01 नवम्बर 2010

हवलदार (क्लर्क) बलराम शर्मा (सं. 13618306एच अब जेसी-588560पी), 01 नवम्बर 2010

हवलदार (क्लर्क) सोनम गैल्चन (सं. 9923960पी अब जेसी-588561एक्स), 01 नवम्बर 2010

हवलदार (क्लर्क) राधे श्याम (सं. 13618491एफ अब जेसी-588562ए),
22 दिसम्बर 2010/01 नवम्बर 2010 *

हवलदार (क्लर्क) बीरेंद्र सिंह नेगी (सं. 13618503एल अब जेसी-588563एच), 01 दिसम्बर 2010/01 नवम्बर 2010 *

हवलदार (क्लर्क) कुलदीप सिंह (सं. 6389580डब्ल्यू अब जेसी-588564एल), 02 दिसम्बर 2010/01 नवम्बर 2010 *

हवलदार (क्लर्क) चरणजीत सिंह (सं. 9924118के अब जेसी-588584वाई), 01 मार्च 2011

हवलदार (क्लर्क) राजेंद्र सिंह बसनल (सं. 6389734एक्स अब जेसी-588585एफ), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (म्युजिसियन) के पद पर

हवलदार (म्युजिसियन) कमल सिंह (सं. 13962227एक्स अब जेसी-588549डब्ल्यू), 07 जुलाई 2010

*(वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जायेगी)

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार पाटील सर्जेराव दिनकरराव (जेसी-459602वाई),
13 नवम्बर 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मेंगे रविंद्रा गंगाराम (जेसी-459613एल), 22 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बलवान सिंह (जेसी-459619एम), 21 मार्च 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पाटील पांडुरंग राजाराम (जेसी-459510एम),
07 जुलाई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अर्जुन राम जाट (जेसी-459628एन), 05 फरवरी 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रामचंद्राप्पा एन (जेसी-459667एम), 25 फरवरी 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ठेकले तुकाराम गजेंद्र (जेसी-459515एल), 13 फरवरी 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुरेकांथा बसवंथा कोलकर (जेसी-459668पी),
11 जून 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कोशती महानंद अन्नासाहेब (जेसी-459652के),
05 फरवरी 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार यल्लाप्पा बापु पाटील (जेसी-459670एम),
25 सितम्बर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रसाल सुभाष सदाशिव (जेसी-459864पी), 11 अगस्त 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गायकवाड अशोक बाबुराव (जेसी-459841एन),
27 जुलाई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 फरवरी 2010 से दी जाती है)

- नायब सूबेदार विरय्या हिरेमठ (जेसी-459713डब्ल्यू), 13 जुलाई 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार गायकवाड तुकाराम तानाजी (जेसी-459646डब्ल्यू), 05 अक्टूबर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार मुलानी नज़रुद्दीन अली (जेसी-459687ए), 10 अप्रैल 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार खुर्सेद हुस्सैन (जेसी-459512एक्स), 29 जून 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार नागराज ए जी (जेसी-459740ए), 07 जुलाई 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार लोंडे विठ्ठल नामदेव (जेसी-459748एम), 02 अगस्त 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार फुटाने सुरेश काशिनाथ (जेसी-459877एम), 28 जुलाई 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार ताथे रामचंद्र ओंकार (जेसी-459842डब्ल्यू), 20 जुलाई 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार मोहिते बालक्रिशन मारुती (जेसी-459779एम), 12 अक्टूबर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार कदम संजय गणेशराव (जेसी-459661एल), 16 अक्टूबर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार आम्रेश सुधीर विष्णु (जेसी-459834एक्स), 28 जून 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार भिकाजी बबन भागवत (जेसी-459850पी), 15 जुलाई 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार कवर गजानन लक्ष्मण (जेसी-459758डब्ल्यू), 27 जुलाई 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार जगताप पांडुरंग श्रिपती (जेसी-459766पी), 10 जुलाई 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार तर्सेम लाल (जेसी-459835ए), 10 जुलाई 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार खताल राजेंद्र चिंधु (जेसी-459759वाई), 30 अक्टूबर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार ए अबुथाकीर (जेसी-459729एफ), 26 जुलाई 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार मंजु नाथ जी एल (जेसी-459773एल), 03 अगस्त 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार पाटील जयवंत व्यांक (जेसी-459565डब्ल्यू), 11 अक्टूबर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार होम्बलाप्पा (जेसी-459719एक्स), 05 अगस्त 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार राणे दयानंद जनाबा (जेसी-459750के), 01 अगस्त 2010
नायब सूबेदार फवार विजय विश्वनाथ (जेसी-459751एम), 01 अगस्त 2010
नायब सूबेदार सुरेश चंदर (जेसी-459685पी), 02 अगस्त 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बालासो नारायण पवार (जेसी-459753एक्स),
04 अगस्त 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार इंदुलकर संजय मारुती (जेसी-459780एफ),
07 अगस्त 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मांडगे कैलास बबन (जेसी-459800के), 09 सितम्बर
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोरे चंद्रकांत विश्वनाथ (जेसी-459823एल),
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार दाते अनिल शंकर (जेसी-459574एक्स), 11 अक्टूबर
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शम्भु राम (जेसी-459829एम), 25 अक्टूबर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लोहार विठ्ठल बापु (जेसी-459926के), 21 अक्टूबर
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कुमार भोरे नंदकुमार सुग्रिव (जेसी-459797पी),
26 अक्टूबर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-459787एल), 14 अक्टूबर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पवार भगवान पांडुरंग (जेसी-459726एन), 28 अगस्त
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पनमंद सोपान महादु (जेसी-459645के), 22 अक्टूबर
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पवार बालासाहेब विठोबा (जेसी-459749पी),
03 सितम्बर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
29 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार खिस्तिराज आरोकस्वामी (जेसी-459855एन),
11 सितम्बर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार नीराटे महादेव साधु (जेसी-459802पी), 01 सितम्बर
2010

नायब सूबेदार शिवने पांडुरंग तुकाराम (जेसी-459806एल),
01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार कानसे तानाजी मारुती (जेसी-459813एफ),
29 अक्टूबर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कोट्य हरिनाथा रेड्डी (जेसी-459649के), 10 नवम्बर
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पद्मनाभा टीजी (जेसी-459815एम), 16 अक्टूबर
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
02 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रामचंद्रा तवन डाकर (जेसी-459669एक्स),
27 अक्टूबर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
09 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अजिमुददीन (जेसी-459867एच), 16 अक्टूबर
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अडुलकर पांडुरंग विठोबा (जेसी-459979एच),
01 नवम्बर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार महाडीक संतोष अर्जुन (जेसी-459909के), 27 अक्टूबर
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पाटील संजीव रनबा (जेसी-459952एल), 30 अक्टूबर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुरेश पाटील (जेसी-459662एन), 16 अक्टूबर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पोतदार गणपत नरसिंग (जेसी-459980एक्स), 27 अक्टूबर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार संजय कुमार (जेसी-460002एच), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार भुरन संतोश विठु (जेसी-460031एक्स), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार शिंदे विश्वास रामचंद्र (जेसी-460032ए), 01 नवम्बर 2010

कुमाऊं रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार लिपिक हरीदास एम के (जेसी-539287एफ), 01 अप्रैल 2011

सूबेदार गोपाल सिंह राणा (जेसी-539198एच), 01 अप्रैल 2011

गार्डस ब्रिगेड

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जसवीर सिंह (जेसी-403466एफ), 29 अप्रैल 2011

सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-403603पी), 16 मई 2011*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

सूबेदार जितेंद्र कुमार सिंह (जेसी-403245पी), 29 जुलाई 2011*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार श्रवन कुमार जाट (जेसी-403985के), 10 नवम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-404323एन), 30 मई 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बीर पाल सिंह (जेसी-404327के), 29 अप्रैल 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार विरेंद्र सिंह (जेसी-404328एम), 25 फरवरी 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मानिक चंद्र राय (जेसी-403944ए), 05 अप्रैल 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 फरवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लाल बहादुर (जेसी-404092एच), 06 अप्रैल 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जगमाला राम ढाका (जेसी-404024पी), 16 अप्रैल 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शंकर लाल (जेसी-403912एक्स), 13 जून 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रेजिमोन एम (जेसी-403920डब्ल्यू), 01 मई 2011

नायब सूबेदार श्री पाल सिंह (जेसी-403932एल), 31 मई 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ब्रह्म प्रकाश (जेसी-403939पी), 26 मई 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मनोज कुमार (जेसी-404002डब्ल्यू), 04 जुलाई 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भुरी श्रावा (जेसी-404186ए), 01 जून 2011

नायब सूबेदार गुलशन कुमार (जेसी-404026ए), 10 जून 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्यारा राम (जेसी-404027एच), 01 जून 2011

नायब सूबेदार गोपी लाल (जेसी-404033डब्ल्यू), 01 जून 2011

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-403968के), 02 जुलाई 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बिरेंद्र सिंह परिहार (जेसी-404198पी), 14 जुलाई 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राज कुमार यादव (जेसी-404254एच), 14 जुलाई 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम चंद्र (जेसी-404079वाई), 21 जुलाई 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार काशी प्रसाद तिवारी (जेसी-404300एम), 01 अगस्त 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पुजारी राम विष्णु (जेसी-404320ए), 01 अगस्त 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बाबु खान (जेसी-403997वाई), 06 अगस्त 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कृष्णा नंद मिश्रा (जेसी-404157एल), 15 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार श्री राकेश कुमार शुक्ला (जेसी-404277के), 29 अगस्त 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राजेश प्रसाद मिश्रा (जेसी-403978एन), 12 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-404030एच), 08 अगस्त 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार आनंद पुरी (जेसी-404046एन), 20 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम अचल यादव (जेसी-404219ए), 15 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार वी अरोकिया सामी (जेसी-404070के), 20 अगस्त 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-404189एन), 02 अगस्त 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कल्याण सिंह (जेसी-404201के), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार बंशी लाल शर्मा, एस एम (जेसी-404206एच), 02 अगस्त 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जय रामा राम गेना (जेसी-404089एच), 16 अगस्त 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार चंद्र प्रकाश (जेसी-404090एक्स), 16 अगस्त 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-404116एफ), 03 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार के वेंकट पापी रेड्डी (जेसी-404105पी), 01 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार देस राज (जेसी-404306एन), 01 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बस्ती राम बिशनोई (जेसी-404031एल), 03 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सर्वेश कुमार (जेसी-404117के), 09 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार संतोश कुमार वर्मा (जेसी-404278एम), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार गुलाब चंद राम (जेसी-404332पी), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार यश पाल सिंह (जेसी-404207एल), 04 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ईंद्र सिंह रौतेला (जेसी-404262एफ), 04 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार महेंद्र पाल (जेसी-404141ए), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार लाल चंद मीणा (जेसी-404153पी), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार चांद राम (जेसी-404238एल), 06 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार धर्म पाल सिंह (जेसी-404240एच), 12 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लाड छगन शाम राव (जेसी-404255एल), 07 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कन्हैया बक्स सिंह (जेसी-404077एन), 12 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सर्वेश कुमार (जेसी-403723एन), 09 सितम्बर 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) अरुन कुमार (जेसी-404192एन), 15 अप्रैल 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) दराडे चांदेव धोंडिबा (जेसी-404200एफ), 16 मई 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) कमलेश चंद्र (जेसी-404214एफ), 22 जुलाई 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) सुरेश प्रसाद (जेसी-404215के), 01 सितम्बर 2011

सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एसकेटी) यशवीर सिंह (जेसी-403546वाई), 11 जुलाई 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सौखी लाल पटेल (सं. 13690393एक्स अब जेसी-404717एम), 19 फरवरी 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार अनीश बाबु टी के (सं. 13693426एच अब जेसी-404693एन), 03 जनवरी 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार बलवान सिंह (सं. 13691819ए अब जेसी-404718पी), 01 अप्रैल 2011

हवलदार राम लाल धाकर (सं. 13692389एन अब जेसी-404719एक्स), 16 अप्रैल 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

हवलदार यशवंत सिंह (सं. 13689999पी अब जेसी-404720एम), 29 अप्रैल 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

हवलदार किशन सिंह (सं. 13690011एच अब जेसी-404721पी), 29 अप्रैल 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

हवलदार गुरुचरनजीत सिंह (सं. 13690089एन अब जेसी-404723ए),
16 मई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

हवलदार नरेंद्र सिंह (सं. 13692069वाई अब जेसी-404724एच),
28 मई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

हवलदार लक्ष्मन सिंह (सं. 13691316पी अब जेसी-404725एल),
11 मई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

हवलदार कृष्णन एस (सं. 13693285वाई अब जेसी-404719एन),
01 मई 2011

हवलदार सुबाश कुमार (सं. 13691334एक्स अब जेसी-404730डब्ल्यू),
12 मई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

हवलदार नरवैर सिंह (सं. 13692885ए अब जेसी-404728वाई),
13 मई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 13691347पी अब जेसी-404731वाई),
26 मई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

हवलदार रनजीत सिंह (सं. 13690357एम अब जेसी-404734एम),
05 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 मई 2011 से दी जाती है)

हवलदार ओम प्रकाश यादवा (सं. 13692599एन अब जेसी-404740ए),
09 सितम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

हवलदार मुकेश कुमार अमेरिया (सं. 13690053पी अब जेसी-404737ए),
01 जून 2011

हवलदार हरभजन सिंह (सं. 13689890पी अब जेसी-404738एच),
05 अगस्त 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार जै विंन्द्र (सं. 13691360वाई अब जेसी-404742एल),
02 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार रमेश (सं. 13691004वाई अब जेसी-404741एच),
02 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार संजय कुमार शर्मा (सं. 13693050एम अब जेसी-404735पी),
02 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार धरम पाल (सं. 13693235एन अब जेसी-404736एक्स),
02 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार शैलेंद्र बाहादुर सिंह (सं. 13694215एम अब जेसी-404744डब्ल्यू),
04 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार विनोद कुमार चौधरी (सं. 13689935के अब जेसी-404739एल),
06 अगस्त 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार राम कवल पाल (सं. 13690029वाई अब जेसी-404743एन),
20 अगस्त 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार तर्सेम लाल रैना (सं. 13690031डब्ल्यू अब जेसी-404750के),
20 अगस्त 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार गजेंद्र बहादुर सिंह (सं. 13694272एन अब जेसी-404745वाई),
14 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार महेंद्र प्रसाद (सं. 13694410के अब जेसी-404747के),
14 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार कैलाश नाथ त्रिपाठी (सं. 13690043एल अब जेसी-404746एफ),
27 जुलाई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार बालिस्टर सिंह (सं. 13690056एच अब जेसी-404748एम),
27 जुलाई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार बलवंत सिंह (सं. 13691440डब्ल्यू अब जेसी-404749पी),
19 जुलाई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार कोठालकर अरुन बलिराम (सं. 13692765डब्ल्यू अब जेसी-404764के), 24 अगस्त 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार प्रवीन कुमार सिंह तोमर (सं. 13690287वाई अब जेसी-404763एफ), 07 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार नवीन पी (सं. 13693105एल अब जेसी-404752पी),
19 जुलाई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार अनेक पाल सिंह (सं. 13690057एल अब जेसी-404751एम),
14 अगस्त 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार राजा राम जी (सं. 13693572एच अब जेसी-404753एक्स),
19 जुलाई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जून 2011 से दी जाती है)

हवलदार आल्हाद राजाराम गोंडने (सं. 13693319एफ अब जेसी-404760एन), 01 जुलाई 2011

हवलदार रमेश प्रसाद (सं. 13694462ए अब जेसी-404756एल),
14 जुलाई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार अभय कुमार जौहरी (सं. 13694533डब्ल्यू अब जेसी-404757एन), 14 जुलाई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार जै सिंह कुल्हारी (सं. 13692146एच अब जेसी-404759वाई),
19 जुलाई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार ओमा राम (सं. 13691461एम अब जेसी-404758डब्ल्यू),
19 जुलाई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार जंग बहादुर (सं. 13692289एच अब जेसी-404761डब्ल्यू),
01 अगस्त 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार कुंद्रकपम धनजीत सिंह (सं. 13691270एक्स अब जेसी-404766पी), 01 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार रुद्र दत्त (सं. 13694535एफ अब जेसी-404767एक्स),
29 अगस्त 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार महेश चंद्र शर्मा (सं. 13691151एफ अब जेसी-404768ए),
12 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार गुलाब चंद (सं. 13687990एफ अब जेसी-404762वाई),
07 अगस्त 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार आजिमन के सी (सं. 13690360एम अब जेसी-404769एच),
07 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार सुखपती प्रसाद दीक्षित (सं. 13691404एल अब जेसी-404770एक्स), 12 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार शाम सिंह (सं. 13690604पी अब जेसी-404771ए),
07 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार जितेंद्र कुमार कौदल (सं. 15612241डब्ल्यू अब जेसी-404772एच), 03 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार प्रीतम सिंह (सं. 13690080वाई अब जेसी-404773एल), 23 अगस्त 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार इंद्र मोहन ठाकुर (सं. 13690356के अब जेसी-404774एन), 23 अगस्त 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार हरपाल सिंह (सं. 13691418एल अब जेसी-404775डब्ल्यू), 05 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार गोपालाकृष्णन वी (सं. 13693648एक्स अब जेसी-404776वाई), 20 अगस्त 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार गिरीश चंद्र (सं. 13691600एल अब जेसी-404777एफ), 01 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार अब्बल चंद (सं. 13690098पी अब जेसी-404780एफ), 07 अगस्त 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार राधे श्याम (सं. 13690118एक्स अब जेसी-404781के), 07 अगस्त 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार राम प्रसाद (सं. 13689998एम अब जेसी-404778के), 16 अगस्त 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार पुरोत्तम लाल (सं. 13690703एक्स अब जेसी-404782एम), 16 अगस्त 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 13691358एफ अब जेसी-404785ए), 12 अगस्त 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार राज कुमार (सं. 13693543एन अब जेसी-404779एम), 03 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार प्रिथ्वीपाल सिंह (सं. 13691302पी अब जेसी-404783पी), 09 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार हंस राज (सं. 13691527एक्स अब जेसी-404784एक्स), 01 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार मनमोहन सिंह (सं. 13691608एक्स अब जेसी-404786एच), 01 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार विजय पाल (सं. 13690148पी अब जेसी-404787एल), 15 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार प्रवैण कुमार सिंहा (सं. 13689872एम अब जेसी-404788एन), 07 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार केवल सिंह (सं. 13690186एल अब जेसी-404789डब्ल्यू), 15 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार अशोक चंद्र जोशी (सं. 13690205एल अब जेसी-404790एल), 19 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अगस्त 2011 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश चंद्र मंदलोइ (सं. 13694793एफ अब जेसी-404803एक्स), 01 सितम्बर 2011

हवलदार राम निवास सिंह (सं. 13694983एन अब जेसी-404804ए), 01 सितम्बर 2011

हवलदार शंकर लाल सैनी (सं. 13692089एम अब जेसी-404799ए),
01 सितम्बर 2011

हवलदार शिव प्रसाद त्रिपाठी (सं. 13692580पी अब जेसी-404802पी),
01 सितम्बर 2011

हवलदार हयात सिंह (सं. 13693429डब्ल्यू अब जेसी-404792डब्ल्यू),
03 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार शिशुपाल सिंह ईदोलिया (सं. 13693324एम अब
जेसी-404793वाई), 03 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 13690407एम अब जेसी-404795के),
05 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार ब्रिज पौल (सं. 13691591पी अब जेसी-404798एक्स),
06 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार लाल सिंह (सं. 13690717एक्स अब जेसी-404800के),
06 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार उबरहांदे गजानन (सं. 13690867एन अब
जेसी-404801एम), 06 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार राम सिंह (सं. 13691874डब्ल्यू अब जेसी-404797पी),
12 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार अमर सिंह (सं. 13691046एल अब जेसी-404796एम),
13 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार देव राज वर्मा (सं. 13690259एल अब जेसी-404794एफ),
15 सितम्बर 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (आरटी) के रैंक में

रिकरूट (आरटी) भुकेश कुमार तिवारी (सं. 404349एच अब
जेसी-404349एच), 06 सितम्बर 2008

रिकरूट (आरटी) मुकेश कुमार (सं. 404574एक्स अब
जेसी-404574एक्स), 11 जनवरी 2010

रिकरूट (आरटी) ईश्वर दयाल पांडेय (सं. 404621के अब
जेसी-404621के), 05 जुलाई 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) एम डी फिरोज खान (सं. 15359810एल अब
जेसी-404702के), 01 अप्रैल 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 13 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार (क्लर्क) विनोद कुमार शर्मा (सं. 13690843के अब
जेसी-404713डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

हवलदार (क्लर्क) लाड़ धानाजी पुंडलिक (सं. 13690902एल अब
जेसी-404714एन), 09 अप्रैल 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

हवलदार (क्लर्क) शिव बरन सिंह (सं. 13690920एन अब
जेसी-404722एक्स), 17 मई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

हवलदार (क्लर्क) राम कुमार मेहता (सं. 13691000एच अब
जेसी-404726एन), 27 मई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

हवलदार (क्लर्क) टोंडे राजेंद्र हरि भाऊ (सं. 13691060एक्स अब
जेसी-404727डब्ल्यू), 25 मई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

हवलदार (क्लर्क) खातिब सादिक साहेब हस्सन साहेब
(सं. 13691065डब्ल्यू अब जेसी-404754ए), 08 जुलाई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार (क्लर्क) सदानंद सेठी (सं. 2482272के अब जेसी-404755एच),
09 जुलाई 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार (क्लर्क) भीम सेन बघेल (सं. 13690838वाई अब जेसी-404791एन), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

हवलदार (एसकेटी) रमेश चंद्र (सं. 13693147एक्स अब जेसी-404712एन), 01 मार्च 2011 *

हवलदार (एसकेटी) नीलमणि नायक (सं. 13693437पी अब जेसी-404732एफ), 11 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

हवलदार (एसकेटी) ऊमेद सिंह (सं. 13692027एम अब जेसी-404733के), 09 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

सुभद्रत करमाकर
अवर सचिव

सं. 117, दिनांक 14 फरवरी 2012--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना
कोर ऑफ इंजीनियर्स
मद्रास इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) कोटा करुणाकर रेड्डी (सं. 15306391एक्स अब जेसी-310090वाई), 02 जून 2011 *

हवलदार (जीडी) प्रदीप एम जी (सं. 15306418के अब जेसी-310094पी), 01 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) ईसै सुधाकरा राव (सं. 15306473ए अब जेसी-310095एक्स), 01 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) बथुला कृष्णाडु (सं. 15306485पी अब जेसी-310096ए), 01 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) पी पेथा पेरुमाल (सं. 15306512एन अब जेसी-310097एच), 01 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) अनु कुमार के ए (सं. 15306641एन अब जेसी-310098एल), 01 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) रघुपथी एम एस (सं. 15306656डब्ल्यू अब जेसी-310099एन), 01 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) विनोदन पी (सं. 15320739एम अब जेसी-310100एक्स), 18 जुलाई 2011#

हवलदार (जीडी) सावाडाला राजा राव (सं. 15321062वाई अब जेसी-310101ए), 07 जुलाई 2011#

हवलदार (जीडी) लीजीस कुमार एन (सं. 15321075डब्ल्यू अब जेसी-310102एच), 01 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) परशुराम (सं. 15321917डब्ल्यू अब जेसी-310103एल), 07 जुलाई 2011#

हवलदार (जीडी) बिक्रान्त टेटे (सं. 15329110एच अब जेसी-310104एन), 27 जुलाई 2011#

हवलदार (जीडी) गोकुलदास के (सं. 15331248डब्ल्यू अब जेसी-310105डब्ल्यू), 01 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) लैटिंग बाम हेनेरि सिंह (सं. 15332457ए अब जेसी-310106वाई), 19 जुलाई 2011#

हवलदार (जीडी) सजीश पी (सं. 15320045एम अब जेसी-310111के), 01 अगस्त 2011

हवलदार (जीडी) के नटराजन (सं. 15301126एक्स अब जेसी-310114एक्स), 01 सितम्बर 2011

हवलदार (जीडी) अब्राहम जाकोब (सं. 15303980एच अब जेसी-310115ए), 01 सितम्बर 2011

हवलदार (जीडी) दिलिप कुमार के (सं. 15306712के अब जेसी-310116एच 01 सितम्बर 2011

हवलदार (जीडी) युसेफ आर (सं. 15318531एल अब जेसी-310117एल), 01 सितम्बर 2011

हवलदार (जीडी) नागराजु बानाला (सं. 15321871वाई अब जेसी-310118एन), 01 सितम्बर 2011

हवलदार (जीडी) ननखु सिंह यादव (सं. 15306875एक्स अब जेसी-310123वाई), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार (जीडी) टी मणिकवासगन (सं. 15306770एन अब जेसी-310124एफ), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार (जीडी) शिवप्रकाश के वी (सं. 15306791के अब जेसी-310125के), 25 अक्टूबर 2011@

हवलदार (जीडी) सन्थोष ए (सं. 15306792एम अब जेसी-310126एम), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार (जीडी) कुशा के बी (सं. 15306819वाई अब जेसी-310128एक्स), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार (जीडी) एस मुथु कृष्णन (सं. 15306830एक्स अब जेसी-310130पी), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार (जीडी) के आनंथन (सं. 15306903वाई अब जेसी-310131एक्स), 19 अक्टूबर 2011@

हवलदार (जीडी) पूवारसन एन (सं. 15306997एफ अब जेसी-310132ए), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार (जीडी) सुरिबोयिना वी रेड्डी (सं. 15307017एफ अब जेसी-310133एच), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार (जीडी) नारायणा राव बुर्ना (सं. 15307233पी अब जेसी-310134एल), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार (जीडी) शशिकान्त नागेकर (सं. 15307275एफ अब जेसी-310135एन), 13 अक्टूबर 2011@

हवलदार (जीडी) रवाडा बाबु राव (सं. 15307325एफ अब जेसी-310137वाई), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार (जीडी) एस प्रेम बीनु (सं. 15307445ए अब जेसी-310138एफ), 07 अक्टूबर 2011@

हवलदार (जीडी) आर बी विजयकुमार (सं. 15307501एन अब जेसी-310139के), 01 अक्टूबर 2011

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी गई है।

#नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी गई है।

@नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी गई है।

विमल
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक
सं. 118, दिनांक 15 फरवरी 2012--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं :-

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक अप्टो इलेक्ट के रैंक में
सचित्रा नंदा जेना (जेसी-760266एच), 01 अक्टूबर 2011
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में
लेंदवे विष्णु गंगा राम (जेसी-760048के), 08 अक्टूबर 2011/
01 अक्टूबर 2011*

सुरेन्द्र सिंह (जेसी-760013एफ), 01 अक्टूबर 2011

सुभाष चंद (जेसी-760273वाई), 01 नवम्बर 2011

समारसम जी (जेसी-760274एफ), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक एस ए के रैंक में

अरुण कुमार (जेसी-760284एल), 21 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011*

मनोज कुमार (जेसी-760291एफ), 05 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011*

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक बी वेहीकल के रैंक में

वरडा विस्वनाथ राव (जेसी-760024ए), 02 सितम्बर 2011/
01 सितम्बर 2011*

मंटु घोष (जेसी-760040एक्स), 02 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011*

रमेश चन्द्र (जेसी-760236पी), 01 नवम्बर 2011

रंजीत सिंह (जेसी-760235एच), 01 नवम्बर 2011

कामराज बी पी (जेसी-760032वाई), 16 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011*

माने भरत सखाराम (जेसी-760039एच), 08 नवम्बर 2011/
01 नवम्बर 2011*

नायब सूबेदार से सूबेदार वेल्डर के रैंक में

जितेन्द्र शर्मा (जेसी-763851एन), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार से सूबेदार स्पोर्टिंग स्टाफ के रैंक में

दलबीर सिंह ननापुरी (जेसी-764019एम), 03 अक्टूबर 2011/
01 अक्टूबर 2011*

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में

सुभाष सिंह (जेसी-760083एम), 14 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011*

ब्रजेश कुमार सिंह (जेसी-760034पी), 01 नवम्बर 2011

संजय उपाध्याय (जेसी-760044एन), 14 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011*

डी सी प्रताप कुमार (जेसी-760047पी), 13 अक्टूबर 2011/
01 अक्टूबर 2011*

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक बी वेहीकल के रैंक में

रमेश चन्द्र गौड (जेसी-760037एक्स), 01 नवम्बर 2011

गौतम कुमार मानिक (जेसी-760317एल), 01 नवम्बर 2011

गोपाल चन्द्र भौमिक (जेसी-760034के), 01 नवम्बर 2011

वाघमारे प्रमोद सोपनाराव (जेसी-760041ए), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार से सूबेदार वेल्डर के रैंक में

कामेश्वर सिंह (जेसी-763887एम), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो इलेक्ट के रैंक में

दीपक दास (जेसी-764140ए), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो टेक बी वेहीकल के रैंक में

भद्रा कांत बौरा (जेसी-764040पी), 01 नवम्बर 2011

जय मंगल सिंह (जेसी-764041एक्स), 01 नवम्बर 2011

बीरबल राय (जेसी-764043एच), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक एस ए के रैंक में

अशोक कुमार (जेसी-760285एन), 01 नवम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011*

के उध्या सुरियान (जेसी-760286डब्ल्यू), 24 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011*

इकबाल सिंह (जेसी-760292के), 18 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011*

नायब सूबेदार से सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

शशि कांत सिंह (जेसी-764695एफ), 01 नवम्बर 2011

भोला नाथ घोष (जेसी-764678एफ), 26 नवम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011*

भागिरथ प्रसाद खंडाल (जेसी-765004डब्ल्यू), 07 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011*

दुला राम (जेसी-765006एफ), 05 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011*

मूल चंद (जेसी-7650022वाई), 01 दिसम्बर 2011

रमेश चंद (जेसी-763597पी), 01 मार्च 2011

कुलदीप सिंह (जेसी-764607ए), 13 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011*

पंछी लाल (जेसी-764879ए), 10 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011*

नायब सूबेदार से सूबेदार एवीएन टेक (ईईएन) के रैंक में

जे एन रमेश मदिवयू (जेसी-762107के), 17 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011*

गौतम ककाती (जेसी-761772ए), 12 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011*

नायब सूबेदार से सूबेदार टेक एसए के रैंक में

एस आर पांडुरंग (जेसी-763487ए), 25 अक्टूबर 2011/01 सितम्बर 2011*

नायब सूबेदार से सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

मांगा राम (जेसी-762491डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011

मोहन लाल (जेसी-762619डब्ल्यू), 01 मई 2011

नायब सूबेदार से सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

सुरेन्द्र प्रसाद (जेसी-761676एल), 01 दिसम्बर 2011

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 119, दिनांक 16 फरवरी 2012--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

वैमानिकीय विकास संस्थान (ए.डी.ई.), बेंगलूर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले पे बैंड + ग्रेड पे वेतनमान के रूप में

रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2011 से :--

नाम, पदनाम, पदोन्नति वेतनमान एवं पे बैंड + ग्रेड पे

जी चंद्रप्रकाश, वैज्ञानिक 'एफ' वैज्ञानिक 'जी', रुपये 37,400--67,000/- + 10,000/- + विशेष वेतन 4,000/- सहित

एस समपथ कुमार, वैज्ञानिक 'एफ' वैज्ञानिक 'जी', रुपये 37,400--67,000/- + 10,000/- + विशेष वेतन 4,000/- सहित

डॉ वी रामाचन्द्र, वैज्ञानिक 'एफ' वैज्ञानिक 'जी', रुपये 37,400--67,000/- + 10,000/- + विशेष वेतन 4,000/- सहित

वी अशोक रंगन, वैज्ञानिक 'एफ' वैज्ञानिक 'जी', रुपये 37,400--67,000/- + 10,000/- + विशेष वेतन 4,000/- सहित

एल एन राघवेन्द्रा, वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ', रुपये 37,400--67,000/- + 8,900/-

श्रीरीकाला कुमारी एस आई, वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ', रुपये 37,400--67,000/- + 8,900/-

प्रकाश बल्लभ, वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ', रुपये 37,400--67,000/- + 8,900/-

डॉ ए एम नागेश्वर योगी, वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ', रुपये 37,400--67,000/- + 8,900/-

शशिकांथ सीसी, वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ', रुपये 37,400--67,000/- + 8,900/-

एस एम मंजूनाथ, वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ', रुपये 37,400--67,000/- + 8,900/-

एल सुशाईराज, वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ', रुपये 37,400--67,000/- + 8,900/-

परेमिला सी एम, वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ', रुपये 37,400--67,000/- + 8,900/-

आर श्रीनिवासन, वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ', रुपये 37,400--67,000/- + 8,900/-

सेलवारज के, वैज्ञानिक 'ई' वैज्ञानिक 'एफ', रुपये 37,400--67,000/- + 8,900/-

महेश एम, वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई', रुपये 37,400--67,000/- + 8,700/-

सतपाल सिंह तोमर, वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई', रुपये 37,400--67,000/- + 8,700/-

मूर्थी, वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई', रुपये 37,400--67,000/- + 8,700/-

एम हरि प्रसाद, वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई', रुपये 37,400--67,000/- + 8,700/-

राधिमोल के आर, वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई', रुपये 37,400--67,000/- + 8,700/-

ए आर सतीश कुमार, वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई', रुपये 37,400--67,000/- + 8,700/-

एस वी यमुना, वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई', रुपये 37,400--
67,000/- + 8,700/-

मोहम्मद शाहिद, वैज्ञानिक 'डी' वैज्ञानिक 'ई', रुपये 37,400--
67,000/- + 8,700/-

क्रिस्टिना मैरी सीई, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

शाजिद नावास ओ, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

शिबा हिजकियल, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

सुगनयानि अलुर, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

किरण जे, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--39,100/-
+ 7,600/-

चंद्रेयी सुभाष घोष, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

अभिषेक माथुर, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

अखिलेश कुमार झा, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

पार्वती यू एम, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

आर थोगाइवनि, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

विजयविठ्ठल पी नादागौडडा, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये
15,600--39,100/- + 7,600/-

जयाश्री हेगडे, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

आर गीरीश, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

ए सुधास एलबिन, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

मनु जैन, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--39,100/-
+ 7,600/-

हेमा के एस, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

ए वादिवेलन, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

रविशंकर बी एन, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

सुफल चंद्र सवार, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

संजय कुमार यादव, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

बिनेषकुमार कानाकन, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

सेलवानायकी के, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

बी एम सोमानाथा, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

मोहित कुमार गर्ग, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

मेशराम देवेंद्र मनिराम, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

देवेश शर्मा, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

संगीता सिंहगल, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

सूरज चौरसिया, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

जी मगेश, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

के विजय आनंद, वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक 'डी', रुपये 15,600--
39,100/- + 7,600/-

प्रदीप कुमार
उप निदेशक (कार्मिक)

सेना शाखा

शुद्धिकरण पत्र

सं. 120, दिनांक 17 फरवरी 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)

के लिए

आईसी-43410, दीपक डे, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007

पढ़ा जाए खाली स्थान

टी के दास
उप निदेशक
एम एस-8ए

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 31st March 2012

INTEGRATED HQs OF MOD (ARMY)
(MILITARY ENGINEER SERVICES)

No. 115, dated 10th February 2012—The President is pleased to appoint the following Officers as the designation showed before their names from the date as mentioned against their names:—

Boddupalli Mallikaurjuna (MES-170446), EE, 31 May 2011 (FN)

Kislav Kishore NYA, AEE (B/R), 12 May 2011 (FN)

Surinder Gupta (MES-509013), AE (QS&C), 14 Nov 2011 (FN)

K. P. Shanavas (MES-141995), AE (QS&C), 11 Feb 2011 (FN)

Debashis Chakraborty (MES-203289), AE (QS&C), 12 Feb 2011 (FN)

Manjit Singh (MES-314174), AE (QS&C), 14 Feb 2011 (FN)

B A Gangadhara (MES-198398), AE (QS&C), 12 Feb 2011 (FN)

Manish Kumar Mittal (MES-507095), AE (QS&C), 11 Feb 2011 (FN)

Suresh Kumar (MES-480081), AE (QS&C), 11 Feb 2011 (FN)

K Sureshan (MES-149856), AE (QS&C), 11 Feb 2011 (FN)

Biplab Kumar Baidya (MES-238822), AE (QS&C), 14 Feb 2011 (FN)

Sheeba Jacob (MES-125287), AE (QS&C), 11 Feb 2011 (FN)

Mohinder Vir Bikram (MES-507133), AE (QS&C), 11 Feb 2011 (FN)

VIMAL
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 116, dated 13th February 2012—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
INFANTRY
THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Kashmir Singh (JC-519882K), 01 Dec 2010

Sub Kamar Chand, SC (JC-520061F), 15 Jun 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jun 2011 without effect on Pay & Allowances)

To be Sub

Nb Sub Bodh Raj (JC-520773K), 11 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Shamsher Singh (JC-520535X), 20 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Niratak Singh (JC-520536A), 20 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 02 May 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-520766N), 31 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 05 May 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Daleep Singh (JC-520537H), 30 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 13 May 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-520978Y), 31 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 21 May 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Kulbir Singh (JC-520542N), 30 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 27 May 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Rajeev Patial (JC-520781H), 18 Jun 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Basant Kumar (JC-520782L), 18 Jun 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Jagdev Raj Singh (JC-520793X), 18 Jun 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2011 without effect on Pay & Allowances)

To be Sub Maj Clk (SD)

Sub/Clk Rohtash Kumar Nimbal (JC-520030F), 01 May 2011

To be Sub Clk (SD)

Nb Sub/Clk Gaj Raj Singh (JC-520443L), 02 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub/Clk Vijay Kumar Sharma (JC-520487H), 29 Apr 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub/Clk Jyoti Bose (JC-520558Y), 01 May 2011

To be Sub Maj

Sub Dalbir Singh (JC-520062K), 02 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 May 2011 without effect on Pay & Allowances)

Sub Vir Singh (JC-519852M), 02 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 May 2011 without effect on Pay & Allowances)

Sub Ashok Kumar (JC-520031K), 09 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 May 2011 without effect on Pay & Allowances)

To be Sub

Nb Sub Sham Lal (JC-520903F), 16 Aug 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2010 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Madan Lal (JC-520777A), 12 Mar 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2010 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Ramesh Singh (JC-520931N), 11 Oct 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2010 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Surinder Singh (JC-520720L), 06 Nov 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2010 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Om Prakash (JC-520697H), 02 Mar 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2010 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Dharm Chand (JC-520771Y), 08 Mar 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 04 Nov 2010 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Suram Singh (JC-520888X), 01 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2010 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Kamal Sen (JC-520727P), 07 Apr 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 22 Dec 2010 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Kuldip Raj (JC-520647X), 07 Mar 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 27 Dec 2010 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Thalia Ram (JC-520753W), 07 Mar 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jan 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Ranjit Singh (JC-520785Y), 01 Mar 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jan 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Janak Raj (JC-520788M), 24 Feb 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jan 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Kuldip Raj Sharma (JC-520728X), 07 Apr 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 26 Jan 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Yash Paul (JC-520701A), 18 Apr 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 10 Feb 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Anup Singh (JC-520715A), 05 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 14 Feb 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Bishan Singh (JC-520969X), 06 Apr 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Prem Singh (JC-521008H), 01 Apr 2011

Nb Sub Nirmal Singh (JC-521017K), 09 Apr 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Ashwini Kumar (JC-520743M), 20 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Surinder Paul (JC-520744P), 02 May 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2011 without effect on Pay & Allowances)

To be Sub Clk (SD)

Nb Sub/Clk Ravinder Kumar (JC-520485X), 01 Apr 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2011 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub/Clk Balindra Bhushan Mishra (JC-520604H), 01 May 2011

To be Sub (Musn)

Nb Sub/Musn Roop Lal (JC-520843X), 01 Mar 2011+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 16 Mar 2011 without effect on Pay & Allowances)

THE JAT REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Atar Singh (JC-490040N), 16 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 04 July 2008 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Subhash Chander Gadhwal (JC-490183N), 01 Aug 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 27 Aug 2008 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Satish Kumar (JC-489885A), 01 Nov 2008*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2008 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Kana Ram (JC-490082A), 23 Jul 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Umed Singh (JC-490148L), 19 Oct 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 16 Dec 2008 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Vijai Kumar (JC-489701W), 12 Jan 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jan 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Ravinder Singh (JC-489922H), 01 Feb 2009

Nb Sub Bhoma Ram Choudhary (JC-489945K), 05 Apr 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Jaggu Ram Jhajharia (JC-489950P), 10 Mar 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Shamsheer Singh (JC-489976K), 08 Feb 2009

Nb Sub Sunder Pal (JC-489939W), 03 Mar 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Yespal Singh (JC-489973W), 01 Mar 2009

Nb Sub Rampal (JC-489974Y), 01 Apr 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Ishwar Singh (JC-490063P), 02 Mar 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Ravendra Singh, SM (JC-489946M), 02 Mar 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Beer Singh (JC-489977M), 17 Mar 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Suresh Kumar Redhu (JC-490047X), 25 Jun 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Tejvir Singh (JC-490048A), 17 Jul 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Inderpal Singh (JC-490058K), 24 Aug 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Yogendra Singh (JC-490059M), 27 Jan 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Manvir (JC-490155F), 15 Oct 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Jasbir Singh (JC-489960Y), 20 Apr 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 12 Mar 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Ram Niwash (JC-489891N), 10 Aug 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 25 Mar 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Satish Kumar (JC-489902P), 01 Apr 2009

Nb Sub Soni Kumar (JC-489932M), 14 Apr 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Harphool Jat (JC-489934X), 18 Apr 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Kulwant Singh (JC-489959K), 01 Apr 2009

Nb Sub Prem Singh (JC-490064X), 29 May 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Rajendra Singh Gawar (JC-490065A), 08 Jul 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Jawahar Ram Pattidar (JC-490106Y), 11 Jul 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Umed Singh (JC-490156K), 31 Dec 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Jugbir Singh (JC-490142K), 11 Jul 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 05 Apr 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Dharam Veer (JC-490070L), 20 Aug 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 12 Apr 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Dharambir (JC-489981P), 01 Jun 2009*
 *(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Bhagirath Mal (JC-489983A), 05 May 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Birendra Singh (JC-490110F), 10 May 2009

Nb Sub Vinod Kumar (JC-489988Y), 23 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Amarjit Singh (JC-490013K), 04 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 23 Jun 2009 without effect on Pay & Allowances)

To be Sub (Musn)

Nb Sub (Musn) Chandan Singh Rana (JC-489970H), 06 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jan 2009 without effect on Pay & Allowances)

JAK LI

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub (GD) Jeet Kumar (JC-592969N), 16 May 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 May 2011)

Sub (GD) Parshotam Singh (JC-592778Y), 04 Jun 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 May 2011)

Sub (GD) Abdul Ghafoor (JC-592905H), 22 Jun 2011

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jun 2011)

To be Sub Maj (Clk)

Sub Clk (SD) Mohd. Iqbal (JC-592838H), 02 May 2011

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj Clk (SD) wef 01 May 2011)

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk (SD) Jasvinder Singh (JC-593247N), 01 Apr 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Clk (SD) wef 01 Apr 2011)

9 GR

To be Sub Maj

Rank, Name, JC No. & Date of Promotion

Sub Om Bahadur Khan (JC-629706P), 02 Feb 2011/ 01 Jan 2011*

Sub Rishi Ram Basnet (JC-629744L), 01 Feb 2011

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Indra Kumar Thapa (JC-629852P), 01 Nov 2010

Nb Sub Padam Pratap GC (JC-629860N), 01 Nov 2010

Nb Sub Dipak Bahadur Chhetri (JC-629865M), 01 Nov 2010

Nb Sub Ghan Bahadur Khatri (JC-629869H), 09 Nov 2010/ 01 Nov 2010*

Nb Sub Mukti Bahadur KC (JC-629884X), 01 Nov 2010

Nb Sub Tek Bahadur Thapa (JC-629787A), 01 Dec 2010

Nb Sub Khem Bahadur Khadka (JC-629788H), 01 Dec 2010

Nb Sub Bishnu Prasad Chhetri (JC-629844W), 06 Dec 2010/01 Dec 2010*

Nb Sub Chittra Bahadur Malla (JC-629888N), 03 Dec 2010/ 01 Dec 2010*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dev Bahadur Chhetri (JC-629891N), 01 Jan 2011

Nb Sub Chandra Bahadur Shahi (JC-629778Y), 01 Feb 2011

Nb Sub Jag Bahadur Thapa (JC-629792L), 01 Feb 2011

Nb Sub Hem Chandra Koirala (JC-629793N), 01 Feb 2011

Nb Sub Laxman Singh Thapa (JC-629794W), 01 Feb 2011

Nb Sub Gobind Bahadur Khattri (JC-629798M), 10 Feb 2011/01 Feb 2011*

Nb Sub Prem Bahadur Shahi (JC-629845Y), 01 Feb 2011

Nb Sub Ramesh Rawat (JC-629810H), 08 Mar 2011/ 20 Feb 2011*

Nb Sub Surya Bahadur KC (JC-629895P), 01 Apr 2011

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

THE PUNJAB REGIMENT

To be Sub Maj Clk

Sub Maj Clk Subhash Chander Vaidya (JC-429800P), 01 May 2011

Sub Maj Clk Ram Prasad Sharma (JC-429801X), 01 May 2011

To be Sub Clk

Sub Clk Ranjit Singh (JC-430255H), 01 May 2011

Sub Clk Satpal Singh (JC-430254A), 01 May 2011

Sub Clk Shanker Singh (JC-430257N), 01 May 2011

To be Sub Maj

Sub Mohinder Singh (JC-429099X), 01 Mar 2011

Sub Karnail Singh (JC-428991H), 01 Apr 2011

To be Sub	3 GR
Nb Sub Kulwant Singh (JC-430139A), 11 May 2010	To be Sub
Nb Sub Romesh Kumar (JC-430388Y), 01 Dec 2010	Nb Sub Pahal Singh Thapa (JC-607750Y), 01 Dec 2010
Nb Sub Manohar Lal (JC-430466L), 01 Dec 2010	Nb Sub Machendra Tamang (JC-607758L), 01 Dec 2010
Nb Sub Sukhwinder Singh Saron (JC-430136M), 01 Jan 2011	Nb Sub Lal Bahadur Gurung (JC-607759N), 01 Dec 2010
Nb Sub Partap Singh (JC-430160H), 01 Jan 2011	Nb Sub Chanbir Roka (JC-607760H), 01 Dec 2010
Nb Sub Vikram Singh Rana (JC-430479H), 01 Jan 2011	Nb Sub Tika Bahadur Thapa (JC-607766K), 04 Dec 2010/ 01 Dec 2010*
Nb Sub Jai Dev (JC-430499W), 01 Feb 2011	Nb Sub Bhoj Bahadur Thapa (JC-607702Y), 07 Jan 2011/ 01 Jan 2011*
Nb Sub Dara Singh (JC-430536Y), 01 Feb 2011	Nb Sub Tej Bahadur Thapa (JC-607745N), 10 Jan 2011/ 01 Jan 2011*
Nb Sub Bhupinder Singh Braham (JC-430313F), 01 Mar 2011	Nb Sub/Clk Ram Naresh (JC-607749K), 23 Feb 2011/ 01 Jan 2011*
Nb Sub Satpal Singh (JC-430392F), 01 Mar 2011	Nb Sub Raj Kumar Shrestha (JC-607761L), 01 Jan 2011
Nb Sub Balbir Singh (JC-430476P), 01 Mar 2011	*(Granted seniority without effect on pay and allowances)
Nb Sub Harbans Singh (JC-430030A), 01 Apr 2010	Nb Sub Nirpa Bahadur Balal (JC-607765F), 01 Jan 2011
Nb Sub Prithvi Singh (JC-430335A), 01 Feb 2011	Nb Sub Jit Bahadur Gurung (JC-607772X), 01 Jan 2011
Nb Sub Ravinderpal Singh (JC-430343Y), 01 Feb 2011	Nb Sub Krishna Bahadur Gurung (JC-607767M), 14 Feb 2011/28 Jan 2011*
Nb Sub Tara Singh (JC-430319H), 01 May 2010	Nb Sub Hira Singh Thapa (JC-607747Y), 01 Feb 2011
Nb Sub Iqbal Singh Lakhanpal (JC-429985F), 01 Jan 2011	Nb Sub Uday Bahadur Gurung (JC-607773A), 01 Feb 2011
Nb Sub Pritam Singh (JC-430270X), 01 Jan 2011	Nb Sub Tul Bahadur Thapa (JC-607774H), 01 Feb 2011
Nb Sub Kuldeep Chand (JC-430405N), 01 Feb 2011	Nb Sub Vimal Kumar (JC-607703F), 16 Mar 2011/01 Mar 2011*
Nb Sub Rajesh Kumar (JC-430510K), 01 Apr 2011	Nb Sub Dhan Bahadur Magar (JC-607768P), 01 Mar 2011
Nb Sub Dewan Chand (JC-430430M), 01 Dec 2010	Nb Sub Dhan Bahadur Thapa (JC-607769X), 01 Mar 2011
Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-430245Y), 01 Jan 2011	*(Granted seniority without effect on pay and allowances)
Nb Sub Paramjit Singh (JC-430514A), 01 Jan 2011	Nb Sub Dev Bahadur Thapa (JC-607777W), 07 Mar 2011/ 01 Mar 2011*
Nb Sub Surjeet Singh Nagra (JC-430327F), 01 Feb 2011	Nb Sub Gam Bahadur Gurung (JC-607781Y), 05 Mar 2011/ 01 Mar 2011*
Nb Sub Bhagu Ram Jat (JC-430483L), 01 Feb 2011	Nb Sub Om Bahadur (JC-607785P), 01 Mar 2011
Nb Sub Resham Pal Singh (JC-430579N), 01 Feb 2011	Nb Sub Ratna Bahadur Pun (JC-607786X), 05 Mar 2011/ 01 Mar 2011*
Nb Sub Sunil Kumar Kaushal (JC-430344F), 01 Apr 2011	Nb Sub Dhurva Bahadur Gurung (JC-607788H), 01 Mar 2011
Nb Sub Madan Lal (JC-430461M), 01 Apr 2011	Nb Sub Padam Bahadur Thapa (JC-607789L), 01 Mar 2011
Nb Sub Lochan Singh (JC-430087P), 01 Aug 2010	Nb Sub Tek Bahadur Thapa (JC-607704K), 01 Apr 2011
Nb Sub Manjinder Singh (JC-430238H), 01 Feb 2011	Nb Sub Dal Bahadur Thapa (JC-607705M), 01 Apr 2011
Nb Sub Kewal Kumar (JC-430431P), 01 Feb 2011	
Nb Sub Mohan Singh (JC-430190A), 01 Mar 2011	
Nb Sub Desha Singh (JC-430191H), 24 Apr 2011	
Nb Sub Sukhdev Singh (JC-430345K), 20 Apr 2011	

Nb Sub Mohan Bahadur Gurung (JC-607782F), 05 Apr 2011/01 Apr 2011*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gopil Bahadur Thapa (JC-607762N), 06 Dec 2010/01 Nov 2010*

Nb Sub Ram Bahadur Thapa (JC-607763W), 01 Nov 2010

Nb Sub Prem Bahadur Gurung (JC-607681N), 02 Dec 2010/01 Dec 2010*

Nb Sub Ramji Shrestha (JC-607684F), 02 Dec 2010/01 Dec 2010*

Nb Sub Rim Bahadur Thapa (JC-607693H), 05 Jan 2011/01 Dec 2010*

Nb Sub Ganesh Pun (JC-607701W), 02 Dec 2010/01 Dec 2010*

Nb Sub Ishwar Thapa (JC-607720F), 01 Dec 2010

Nb Sub Bir Bahadur Rana (JC-607743H), 01 Dec 2010

Nb Sub Bishnu Bahadur Rana (JC-607744L), 01 Dec 2010

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

THE SIKH REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Rachhpal Singh (JC-498953K), 01 Apr 2011

Sub Balbir Singh SC (JC-499041A), 01 May 2011

To be Sub

Nb Sub Dilbag Singh (JC-499777K), 13 Apr 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Manjit Singh (JC-499705A), 01 Apr 2011

Nb Sub Bharpur Singh (JC-499710L), 03 Apr 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-499841W), 01 Apr 2011

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Rama Kanta Rath (JC-499760W), 01 Apr 2011

Nb Sub Clk Durga Prasad Singh (JC-499763K), 06 Apr 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Clk Patil Sampatrav Anandrav (JC-499793F), 06 Apr 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Devinder Singh (JC-499824W), 20 Apr 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Harvinder Singh (JC-499654X), 01 May 2011

Nb Sub Bohar Singh (JC-499943M), 01 Jun 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 18 May 2011 without effect on pay and allowances)

To be Sub RT

Nb Sub (RT) Pardeep Singh (JC-498719N), 30 Apr 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub (RT) wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (RT) Kashmir Singh (JC-498720H), 06 May 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub (RT) wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Digh Ram (JC-412565L), 01 Jun 2010

Sub Uttam Janba Tikka (JC-412555F), 09 Aug 2010

Sub Sanjay Patil (JC-412580A), 09 Oct 2010

Sub Dilbag Singh (JC-412563A), 01 Sep 2010

Sub Ranjit Singh Rathore (JC-412779F), 06 Oct 2010

Sub Roshan Lal (JC-412688X), 01 Oct 2010

Sub Gian Chand (JC-412721K), 01 Nov 2010

Sub Piar Singh (JC-412775L), 01 Dec 2010

Sub Ram Kishan (JC-412707X), 03 Dec 2010

Sub Gyan Singh, SM (JC-412392Y), 02 Dec 2010

To be Sub

Nb Sub Mehar Singh (JC-413209X), 01 May 2010

Nb Sub Naresh Kumar (JC-413244A), 01 May 2010

Nb Sub Rajindra Kumar (JC-413037N), 01 Jun 2010

Nb Sub Pawan Kumar (JC-413054N), 01 Jun 2010

Nb Sub Ratan Lal Gurjar (JC-413115A), 01 Jun 2010

Nb Sub Krishan Kumar (JC-413120L), 01 Jun 2010

Nb Sub Pratap Singh (JC-413201L), 01 Jun 2010

Nb Sub Swatantar Singh (JC-413073Y), 01 Jul 2010

Nb Sub Khushi Ram (JC-413080P), 01 Jul 2010

Nb Sub Todakar Ravindra Shankar Rao (JC-413230A), 01 Jul 2010

Nb Sub Pradhan Namdeo Ghinaji, SM (JC-412920X), 12 Jul 2010	Nb Sub Mahendra Singh Rawat (JC-413093M), 01 Feb 2011
Nb Sub Ranbir Singh (JC-412952A), 12 Jul 2010	Nb Sub Manjeet Singh (JC-413091F), 01 Feb 2011
Nb Sub Dan Singh Seepal, SM (JC-412953H), 01 Aug 2010	Nb Sub Sandesh Kumar (JC-413090Y), 01 Feb 2011
Nb Sub Bachi Singh Bisht (JC-413202L), 01 Aug 2010	Nb Sub Balwinder Singh (JC-413098L), 01 Feb 2011
Nb Sub Chander Singh (JC-413203W), 01 Aug 2010	Nb Sub Ramesh Kumar (JC-413190K), 01 Feb 2011
Nb Sub Shiv Kumar Singh (JC-413148L), 01 Sep 2010	Nb Sub Chanan Mal (JC-413222F), 01 Feb 2011
Nb Sub Pooran Ram Gunjiyal (JC-413155F), 01 Sep 2010	Nb Sub Sukhbir Singh, SM (JC-413156K), 01 Feb 2011
Nb Sub Vijay Kumar (JC-413165L), 01 Sep 2010	Nb Sub Harpal Singh (JC-413082A), 01 Feb 2011
Nb Sub Besri Ram (JC-413245H), 01 Sep 2010	Nb Sub Kalloo Singh Gurjar (JC-413142K), 01 Feb 2011
Nb Sub Bhuwan Garkoti (JC-413229L), 01 Oct 2010	Nb Sub Lole Gulab Rao Baban Rao (JC-413152M), 01 Feb 2011
Nb Sub Piar Singh (JC-413255M), 01 Oct 2010	Nb Sub Sugandar Singh (JC-413282A), 06 Feb 2011
Nb Sub Abhimanyu Singh (JC-413277L), 01 Oct 2010	Nb Sub Anoop Singh (JC-413263L), 06 Feb 2011
Nb Sub Vinod Kumar Sharma (JC-413278N), 01 Oct 2010	Nb Sub Dhan Singh (JC-413383K), 13 Feb 2011
Nb Sub Naresh Singh (JC-413247N), 01 Oct 2010	Nb Sub Chandra Shekhar Chauhan (JC-413382F), 13 Feb 2011
Nb Sub Sewak Singh (JC-413258A), 01 Oct 2010	Nb Sub Gagan Singh (JC-413394W), 13 Feb 2011
Nb Sub Yashpal (JC-413185Y), 01 Dec 2010	Nb Sub Satwinder Singh (JC-413316Y), 13 Feb 2011
Nb Sub Khim Chand, SM (JC-413257X), 01 Dec 2010	Nb Sub Upendra Singh (JC-413304K), 13 Feb 2011
Nb Sub Bharat Bhushan Sharma (JC-413187K), 01 Dec 2010	Nb Sub Sher Singh (JC-413211P), 16 Feb 2011
Nb Sub Narayan Singh Chauhan (JC-413166N), 01 Dec 2010	To be Sub Clk (SD)
Nb Sub Sona Ram Godara (JC-413260X), 01 Dec 2010	Nb Sub Clk (SD) Halinder Singh (JC-413168Y), 01 Jul 2010
Nb Sub Hari Singh (JC-413261A), 01 Dec 2010	Nb Sub Clk (SD) Babu M (JC-413183N), 01 Dec 2010
Nb Sub Satya Prasad Nawani (JC-413262H), 01 Dec 2010	Nb Sub Clk (SD) Jalapati Srinivasulu (JC-413192P), 01 Dec 2010
Nb Sub Bharat Singh Chhetri (JC-413295N), 01 Dec 2010	Nb Sub Clk (SD) Ved Prakash (JC-413191M), 01 Feb 2011
Nb Sub Aiti Bahadur Rai (JC-413140L), 01 Jan 2011	Nb Sub Clk (SD) Satish Chedde (JC-413196L), 01 Apr 2011
Nb Sub Satish Kumar (JC-413151L), 01 Jan 2011	Nb Sub Clk (SD) Rambir Singh (JC-413221Y), 01 Apr 2011
Nb Sub Ramesh Kumar Yadav (JC-413157W), 01 Jan 2011	Nb Sub Clk (SD) Kapil Deo Pandey (JC-413226X), 01 May 2011
Nb Sub Dilip Kumar Verma (JC-413259H), 01 Jan 2011	LADAKH SCOUTS
Nb Sub Dara Singh Dhama (JC-413167W), 01 Jan 2011	To be Sub Maj (GD)
Nb Sub Raut Jagdev Vishram, SM (JC-413117L), 01 Feb 2011	Sub Nawang Stobdan (JC-588103F), 01 Apr 2008
Nb Sub Pawan Singh (JC-413379F), 01 Feb 2011	Sub Chhering Phunchok (JC-588107X), 01 Jul 2008
Nb Sub Daya Kishan Joshi, SM (JC-413380W), 01 Feb 2011	Sub Lobzang Netak (JC-588128N), 01 Jul 2008
Nb Sub Surjit Singh (JC-413085N), 01 Feb 2011	Sub Phunchok Namgial (JC-588104K), 01 Nov 2008
Nb Sub Yudhbir Singh (JC-413086W), 01 Feb 2011	Sub Lobzang Chhering (JC-588132W), 06 Nov 2008/ 01 Nov 2008*

Sub Tashi Dorje (JC-588176N), 01 Nov 2008
 Sub Sonam Rigzin (JC-588134F), 01 Oct 2009
 Sub Chhetan Namgial (JC-588216K), 01 Dec 2009
 Sub Sonam Dorje (JC-588100N), 01 May 2010
 Sub Chhering Angdus (JC-588124X), 16 Jun 2010/01 Jun 2010*
 Sub Narayan Chand (JC-588179F), 01 Jun 2010
 Sub Tashi Paljor (JC-588143H), 04 Sep 2010/01 Sep 2010*
 Sub Lobzang Gurmit (JC-588137P), 12 Sep 2010/01 Sep 2010*
 Sub Chhewang Mutup (JC-588171P), 04 Oct 2010/01 Oct 2010*
 Sub Sonam Dorje (JC-588175L), 16 Nov 2010/01 Nov 2010*
 Sub Sonam Tundup (JC-588120F), 18 Jan 2011/01 Dec 2010*
 Sub Chhering Nurbu (JC-588109H), 10 Feb 2011/01 Feb 2011*

To be Sub Maj Clk (SD)

Sub Clk Sat Paul (JC-588065W), 01 Nov 2010

To be Sub (GD)

Nb Sub Tundup Wangial (JC-588435L), 02 Jan 2011/01 Mar 2010*
 Nb Sub Chhering Angchok (JC-588392F), 05 Jun 2010/01 Jun 2010*
 Nb Sub Thukje Gellik (JC-588378P), 14 Jun 2010/01 Jun 2010*
 Nb Sub Phunchok Angchok (JC-588400P), 13 Jul 2010/01 Jul 2010*
 Nb Sub Skarma Choas (JC-588403H), 02 Aug 2010/01 Aug 2010*
 Nb Sub Nawang Chhering (JC-588316P), 01 Sep 2010
 Nb Sub Tundup Dorjay (JC-588390W), 01 Sep 2010
 Nb Sub Rigzin Angchok (JC-588397A), 01 Sep 2010
 Nb Sub Sher Singh (JC-588395P), 08 Nov 2010/01 Oct 2010*
 Nb Sub Mohd Yousuf (JC-588408F), 01 Oct 2010
 Nb Sub Tsering Samphel (JC-588418L), 01 Oct 2010
 Nb Sub Tundup Namgial (JC-588427M), 01 Oct 2010
 Nb Sub Tsering Angdus (JC-588401X), 01 Nov 2010
 Nb Sub Stanzin Tundup (JC-588430M), 02 Dec 2010/01 Dec 2010*
 Nb Sub Tashi Chafail (JC-588410Y), 01 Jan 2011
 Nb Sub Rajinder Pal (JC-588446X), 01 Jan 2011
 Nb Sub Nawang Chhering (JC-588450A), 01 Jan 2011

Nb Sub Sonam Rigzin (JC-588416A), 01 Jan 2011
 Nb Sub Tashi Mutup (JC-588423W), 04 Jan 2011/01 Jan 2011*
 Nb Sub Dorjay Stanzin (JC-588451H), 01 Feb 2011
 Nb Sub Padma Dorje (JC-588411F), 14 Feb 2011/01 Feb 2011*
 Nb Sub Sonam Angchok (JC-588455Y), 03 Feb 2011/01 Feb 2011*
 Nb Sub Tsering Gonbo (JC-588437W), 11 Feb 2011/01 Feb 2011*
 Nb Sub Kunga Samphial (JC-588438Y), 02 Feb 2011/01 Feb 2011*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub (Clk) Ram Kumar (JC-588361F), 01 Sep 2010
 Nb Sub (Clk) Skarma Paljor (JC-588368L), 01 Nov 2010
 Nb Sub (Clk) Skarma Motup (JC-588370H), 01 Nov 2010
 Nb Sub (Clk) Lamchung Tsering (JC-588381P), 01 Mar 2011

To be Nb Sub (GD)

Hav Phunchok Tashi (No. 9923417W now JC-588531A), 30 Mar 2010/01 Mar 2010*
 Hav Tsetan Namgial (No. 9923890F now JC-588538K), 09 Mar 2010/06 Mar 2010*
 Hav Dinesh Kumar (No. 9923668A now JC-588539M), 06 Apr 2010/10 Mar 2010*
 Hav Tsering Morup (No. 9923516Y now JC-588540F), 31 Mar 2010
 Hav Mohd Ali (No. 9923767H now JC-588541K), 01 Apr 2010
 Hav Spanba Tsering (No. 9923965N now JC-588542M), 01 Apr 2010
 Hav Gyaltsan Nima (No. 9923723L now JC-588543P), 07 May 2010/01 May 2010*
 Hav Mehdi Khan (No. 9923812K now JC-588544X), 10 May 2010/01 May 2010*
 Hav Tsetan Phonsog (No. 9923688N now JC-588545A), 01 Jun 2010
 Hav Param Chand (No. 9923844M now JC-588546H), 14 Jun 2010/01 Jun 2010*
 Hav Kunzang Thinles (No. 9923505M now JC-588547L), 03 Jul 2010/01 Jul 2010*
 Hav Tsering Angchok (No. 9923985F now JC-588548N), 01 Aug 2010
 Hav Prem Jit (No. 9923622X now JC-588551N), 01 Sep 2010

Hav Rigzin Targias, SM (No. 9923719H now JC-588552W),
10 Sep 2010/01 Sep 2010*

Hav Tashi Dorje (No. 9923919Y now JC-588553Y), 06
Sep 2010/01 Sep 2010*

Hav Namgial Dorjay (No. 9923647K now JC-588554F),
08 Nov 2010/01 Oct 2010*

Hav Thinles Tsewang (No. 9923813M now JC-588555K),
01 Oct 2010

Hav Shiv Lal (No. 9923848H now JC-588556M), 01 Oct
2010

Hav Tsering Namgial (No. 9923747P now JC-588557P),
01 Oct 2010

Hav Nawang Yountan (No. 9923963H now JC-588558X),
01 Oct 2010

Hav Nawang Yontan (No. 9923677F now JC-588565N),
15 Nov 2010/01 Nov 2010*

Hav Rinchan Zangbo (No. 9923776K now JC-588570Y),
01 Nov 2010

Hav Madho Ram (No. 9923833A now JC-588566W), 04
Dec 2010/01 Dec 2010*

Hav Tsering Wangdus (No. 9923797A now JC-588567Y),
01 Dec 2010

Hav Punchok Tundup (No. 9923870N now JC-588568F),
01 Dec 2010

Hav Nawang Lungtok (No. 9923132W now JC-588569K),
02 Dec 2010/01 Dec 2010*

Hav Ram Lal (No. 9923845P now JC-588571F), 02 Feb
2011/01 Dec 2010*

Hav Sonam Chespal (No. 9923914A now JC-588572K),
01 Jan 2011

Hav Sonam Norboo (No. 9923865H now JC-588573M),
01 Jan 2011

Hav Rigzin Otsal (No. 9923940F now JC-588574P), 01 Jan
2011

Hav Thugjay Namgial (No. 9923978L now JC-588575X),
08 Mar 2011/01 Jan 2011*

Hav Mohd Din (No. 9924168P now JC-588576A), 01 Jan
2011

Hav Tsewang Rigzin (No. 9924137P now JC-588577H),
04 Jan 2011/01 Jan 2011*

Hav Tsewang Nurbu (No. 9924359K now JC-588578L),
04 Jan 2011/01 Jan 2011*

Hav Stanzin Rinchan (No. 9924545A now JC-588579N),
01 Feb 2011/16 Jan 2011*

Hav Sangay Punchok (No. 9923868W now JC-588580H),
01 Feb 2011

Hav Kunzang Namgial (No. 9923926P now JC-588581L),
02 Feb 2011/01 Feb 2011*

Hav Nawang Samtan (No. 9923886Y now JC-588582N),
02 Feb 2011/01 Feb 2011*

Hav Kunzang Dorje (No. 9924289W now JC-588583W),
03 Feb 2011/01 Feb 2011*

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav/Clk Minaketan Chanda (No. 13618209L now JC-
588550L), 01 Sep 2010

Hav/Clk Shiv Kumar Singh (No. 9923951N now JC-
588559A), 01 Nov 2010

Hav/Clk Balam Sharma (No. 13618306H now JC-588560P),
01 Nov 2010

Hav/Clk Sonam Gailchan (No. 9923960P now JC-588561X),
01 Nov 2010

Hav/Clk Radhe Shyam (No. 13618491F now JC-588562A),
22 Dec 2010/01 Nov 2010*

Hav/Clk Birendra Singh Negi (No. 13618503L now JC-
588563H), 01 Dec 2010/01 Nov 2010*

Hav/Clk Kuldeep Singh (No. 6389580W now JC-588564L),
02 Dec 2010/01 Nov 2010*

Hav/Clk Charanjeet Singh (No. 9924118K now JC-
588584Y), 01 Mar 2011

Hav/Clk Rajendra Singh Basnal (No. 6389734X now JC-
588585F), 01 Mar 2011

To be Nb Sub (Musn)

Hav (Musician) Kamal Singh (No. 13962277X now JC-
588549W), 07 Jul 2010

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allowances)

THE MARATHA LI

To be Sub (GD)

Nb Sub Patil Sarjerao Dinkarrao (JC-459602Y), 13 Nov
2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without
effect on pay and allowances)

Nb Sub Menge Ravindra Gangaram (JC-459613L), 22 Apr
2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 08 Oct 2009 without
effect on pay and allowances)

Nb Sub Balwan Singh (JC-459619M), 21 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 14 Oct 2009 without
effect on pay and allowances)

Nb Sub Patil Pandurang Rajaram (JC-459510M), 07 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Arjun Ram Jat (JC-459628N), 05 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ramchandrapa N (JC-459667M), 25 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dhekale Tukaram Gajendra (JC-459515L), 13 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 06 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surekantha Basawantha Kolkar (JC-459668P), 11 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Koshti Mahanand Annasaheb (JC-459652K), 05 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Yallappa Bapu Patil (JC-459670M), 25 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rasal Subhash Sadashiv (JC-459864P), 11 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gaikwad Ashok Baburao (JC-459841N), 27 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 20 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Veerayya Hiremath (JC-459713W), 13 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gaikwad Tukaram Tanaji (JC-459646W), 05 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mullani Najarudin Alli (JC-459687A), 10 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Khursed Hussain (JC-459512X), 29 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nagaraja AG (JC-459740A), 07 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Londhe Vitthal Namdeo (JC-459748M), 02 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Futane Suresh Kashinath (JC-459877M), 28 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Tathe Ramchandra Onkar (JC-459842W), 20 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mohite Balkrishna Maruti (JC-459779M), 12 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kadam Sanjay Ganeshrao (JC-459661L), 16 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ambre Sudhir Vishnu (JC-459834X), 28 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 20 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhikaji Baban Bhagwat (JC-459850P), 15 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kavar Gajanan Laxman (JC-459758W), 27 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagatap Pandurang Shripati (JC-459766P), 10 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Tarsem Lal (JC-459835A), 10 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Khatal Rajendra Chindhu (JC-459759Y), 30 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub A Abuthakir (JC-459729F), 26 Jul 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Manju Natha GL (JC-459773L), 03 Aug 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Patil Jayavant Vyank (JC-459565W), 11 Oct 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 07 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hombalappa (JC-459719X), 05 Aug 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 08 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rane Dayanand Janaba (JC-459750K), 01 Aug 2010
 Nb Sub Pawar Vijay Vishwanath (JC-459751M), 01 Aug 2010

Nb Sub Suresh Chander (JC-459685P), 02 Aug 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Balaso Narayan Pawar (JC-459753X), 04 Aug 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Indulkar Sanjay Maruti (JC-459780F), 07 Aug 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mandage Kailas Baban (JC-459800K), 09 Sep 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub More Chandrakant Vishvanath (JC-459823L), 01 Aug 2010

Nb Sub Date Anil Shankar (JC-459574X), 11 Oct 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shambhu Ram (JC-459829M), 25 Oct 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lohar Vitthal Bapu (JC-459926K), 21 Oct 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kumar Bhole Nandkumar Sugriv (JC-459797P), 26 Oct 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahabir Singh (JC-459787L), 14 Oct 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pawar Bhagwan Pandurang (JC-459726N), 28 Aug 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Panmand Sopan Mahadu (JC-459645K), 22 Oct 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pawar Balasaheb Vithoba (JC-459749P), 03 Sep 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 29 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Christaraj Arokswamy (JC-459855N), 11 Sep 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nirate Mahadeo Sadhu (JC-459802P), 01 Sep 2010
 Nb Sub Shivane Pandurang Tukaram (JC-459806L), 01 Sep 2010

Nb Sub Kanse Tanaji Maruti (JC-459813F), 29 Oct 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kotta Harinatha Reddy (JC-459649K), 10 Nov 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Padmanabha TG (JC-459815M), 16 Oct 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 02 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ramchandra Tawan Dakar (JC-459669X), 27 Oct 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 09 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ajimuddin (JC-459867H), 16 Oct 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Adulkar Pandurang Vithoba (JC-459979H), 01 Nov 2010*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahadik Santosh Arjun (JC-459909K), 27 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Patil Sanjiv Ranaba (JC-459952L), 30 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Suresh Patil (JC-459662N), 16 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 04 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Potdar Ganpat Narsing (JC-459980X), 27 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 23 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sanjay Kumar (JC-460002H), 01 Nov 2010

Nb Sub Bhuran Santosh Vithu (JC-460031X), 01 Nov 2010

Nb Sub Shinde Vishvas Ramchandra (JC-460032A), 01 Nov 2010

THE KUMAON REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Clk Haridas MK (JC-539287F), 01 Apr 2011

Sub Gopal Singh Rana (JC-539198H), 01 Apr 2011

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Sub Maj

Sub Jasveer Singh (JC-403466F), 29 Apr 2011

Sub Krishan Kumar (JC-403603P), 16 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces wef 01 May 2011)

Sub Jitendra Kumar Singh (JC-403245P), 29 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces wef 01 Jul 2011)

To be Sub

Nb Sub Sharwan Kumar Jat (JC-403985K), 10 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2010)

Nb Sub Pradeep Kumar (JC-404323N), 30 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Dec 2010)

Nb Sub Beer Pal Singh (JC-404327K), 29 Apr 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2011)

Nb Sub Virendra Singh (JC-404328M), 25 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2011)

Nb Sub Manik Chandra Ray (JC-403944A), 05 Apr 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 10 Feb 2011)

Nb Sub Lal Bahadur (JC-404092H), 06 Apr 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Apr 2011)

Nb Sub Jagamala Ram Dhaka (JC-404024P), 16 Apr 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Apr 2011)

Nb Sub Shankar Lal (JC-403912X), 13 Jun 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 22 Apr 2011)

Nb Sub Rejimon M (JC-403920W), 01 May 2011

Nb Sub Shri Pal Singh (JC-403932L), 31 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 May 2011)

Nb Sub Braham Prakash (JC-403939P), 26 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 May 2011)

Nb Sub Manoj Kumar (JC-404002W), 04 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 May 2011)

Nb Sub Bhuri Shrawa (JC-404186A), 01 Jun 2011

Nb Sub Gulshan Kumar (JC-404026A), 10 Jun 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 May 2011)

Nb Sub Payara Ram (JC-404027H), 01 Jun 2011

Nb Sub Gopi Lal (JC-404033W), 01 Jun 2011

Nb Sub Gurmeet Singh (403968K), 02 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)

Nb Sub Ravinder Singh (JC-403980L), 02 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)

Nb Sub Shishu Pal (JC-403967F), 07 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)

- Nb Sub Aman Chandra Azad (JC-404076L), 07 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)
- Nb Sub K Loganathan (JC-404009A), 04 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)
- Nb Sub Durga Ram Jakhar (404028L), 04 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)
- Nb Sub Jagbir Singh (JC-404060A), 27 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)
- Nb Sub Ashok Kumar Misra (JC-404093L), 04 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)
- Nb Sub Raj Paul (JC-404187H), 02 Aug 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)
- Nb Sub Jatinder Kumar Sharma (JC-404188L), 02 Aug 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)
- Nb Sub Dinesh Chandra (JC-404118M), 14 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 05 Jun 2011)
- Nb Sub Baljit Singh (JC-403889P), 09 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 08 Jun 2011)
- Nb Sub Vinay Kumar (JC-404196K), 14 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 12 Jun 2011)
- Nb Sub Arvind Kumar (JC-404112L), 27 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 12 Jun 2011)
- Nb Sub Babu Lal Yadav (JC-404045L), 27 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 12 Jun 2011)
- Nb Sub Bijendra Singh (JC-403993H), 09 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 15 Jun 2011)
- Nb Sub Ajay Kumar (JC-404183M), 27 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 15 Jun 2011)
- Nb Sub Niranjana Kar (JC-404099M), 04 Aug 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 17 Jun 2011)
- Nb Sub Chain Singh Manhas (JC-403983Y), 19 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 17 Jun 2011)
- Nb Sub Beche Lal (JC-404205A), 01 Aug 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 19 Jun 2011)
- Nb Sub Sukhvir (JC-403835N), 24 Aug 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 19 Jun 2011)
- Nb Sub B Gunasekaran (JC-404003Y), 19 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 23 Jun 2011)
- Nb Sub Leo A (JC-404017Y), 19 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 25 Jun 2011)
- Nb Sub Veeresh Kumar (JC-404267A), 01 Jul 2011
- Nb Sub prasanna Kumar Sharma (JC-404197M), 14 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2011)
- Nb Sub Birendra Singh Parihar (JC-404198P), 14 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2011)
- Nb Sub Raj Kumar Yadaw (JC-404254H), 14 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2011)
- Nb Sub Ram Chander (JC-404079Y), 21 Jul 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2011)
- Nb Sub Kashi Prasad Tiwari (JC-404300M), 01 Aug 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2011)
- Nb Sub Pujari Ram Vishnu (JC-404320A), 01 Aug 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2011)
- Nb Sub Babu Khan (JC-403997Y), 06 Aug 2011*
*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2011)

- Nb Sub Krishna Nand Mishra (JC-404157L), 15 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2011)
- Nb Sub Sri Rakesh Kumar Shukla (JC-404277K), 29 Aug 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 03 Jul 2011)
- Nb Sub Rajesh Prasad Mishra (JC-403978N), 12 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 08 Jul 2011)
- Nb Sub Vijay Kumar (JC-404030H), 08 Aug 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 13 Jul 2011)
- Nb Sub Anand Puri (JC-404046N), 20 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 21 Jul 2011)
- Nb Sub Ram Achal Yadav (JC-404219A), 15 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 28 Jul 2011)
- Nb Sub V Arockia Samy (JC-404070K), 20 Aug 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 30 Jul 2011)
- Nb Sub Ajit Singh (JC-404189N), 02 Aug 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)
- Nb Sub Kalyan Singh (JC-404201K), 01 Aug 2011
- Nb Sub Bansi Lal Sharma, SM (JC-404206H), 02 Aug 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)
- Nb Sub Jai Rama Ram Gena (JC-404089H), 16 Aug 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)
- Nb Sub Chandra Prakash (JC-404090X), 16 Aug 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)
- Nb Sub Satbir Singh (JC-404116F), 03 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)
- Nb Sub K Venkata Papi Reddy (JC-404105P), 01 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)
- Nb Sub Des Raj (JC-404306N), 01 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)
- Nb Sub Basti Ram Bishnoi (JC-404031L), 03 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2011)
- Nb Sub Sarvesh Kumar (JC-404117K), 09 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2011)
- Nb Sub Santosh Kumar Varma (JC-404278M), 01 Sep 2011
- Nb Sub Gulab Chand Ram (JC-404332P), 01 Sep 2011
- Nb Sub Yash Pal Singh (JC-404207L), 04 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2011)
- Nb Sub Indra Singh Rautela (JC-404262F), 04 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2011)
- Nb Sub Mahender Pal (JC-404141A), 01 Sep 2011
- Nb Sub Lal Chand Meena (JC-404153P), 01 Sep 2011
- Nb Sub Chand Ram (JC-404238L), 06 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2011)
- Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-404240H), 12 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2011)
- Nb Sub Lad Chhagan Sham Rao (JC-404255L), 07 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2011)
- Nb Sub Kanhaya Bux Singh (JC-404077N), 12 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2011)
- Nb Sub Sarvesh Kumar (JC-403723N), 09 Sep 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2011)
- To be Sub Clk (SD)
- Nb Sub Clk (SD) Arun Kumar (JC-404192N), 15 Apr 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Apr 2011)

Nb Sub Clk (SD) Darade Changdev Dhondiba (JC-404200F), 16 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Apr 2011)

Nb Sub Clk (SD) Kamlesh Chander (JC-404214F), 22 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2011)

Nb Sub Clk (SD) Suresh Prasad (JC-404215K), 01 Sep 2011

To be Sub (SKT)

Nb Sub (SKT) Yesveer Singh (JC-403546Y), 11 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 May 2011)

To be Nb Sub

Hav Saokhee Lal Patel (No. 13690393C now JC-404717M), 19 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Oct 2010)

Hav Aneesh Babu TK (No. 13693426H now JC-404693N), 03 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jan 2011)

Hav Balwan Singh (No. 13691819A now JC-404718P), 01 Apr 2011

Hav Ram Lal Dhaker (No. 13692389N now JC-404719X), 16 Apr 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Apr 2011)

Hav Yashwant Singh (No. 13689999P now JC-404720M), 29 Apr 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Apr 2011)

Hav Kishan Singh (No. 13690011H now JC-404721P), 29 Apr 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Apr 2011)

Hav Gurcharanjit Singh (No. 13690089N now JC-404723A), 16 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 04 Apr 2011)

Hav Narendra Singh (No. 13692069Y now JC-404724H), 28 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 15 Apr 2011)

Hav Laxman Singh (No. 13691316P now JC-404725L), 11 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 22 Apr 2011)

Hav Krishnan S (No. 13693285Y now JC-404729N), 01 May 2011*

Hav Subash Kumar (No. 13691334X now JC-404730W), 12 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 May 2011)

Hav Narvair Singh (No. 13692825A now JC-404728Y), 13 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 May 2011)

Hav Vinod Kumar (No. 13691347P now JC-404731Y), 26 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 May 2011)

Hav Ranjeet Singh (No. 13690357M now JC-404734M), 05 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 May 2011)

Hav Om Prakash Yadawa (No. 13692599N now JC-404740A), 09 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 May 2011)

Hav Mukesh Kumar Ameriya (No. 13690053P now JC-404737A), 01 Jun 2011

Hav Harbhajan Singh (No. 13689890P now JC-404738H), 05 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)

Hav Jai Vindra (No. 13691360Y now JC-404742L), 02 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)

Hav Ramesh (No. 13691004Y now JC-404741H), 02 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)

Hav Sanjay Kumar Sharma (No. 13693050M now JC-404735P), 02 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2011)

Hav Dharam Pal (No. 13693235N now JC-404736X),
02 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Jun 2011)

Hav Shailendra Bahadur Singh (No. 13694215M now JC-
404744W), 04 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Jun 2011)

Hav Binod Kumar Choudhary (No. 13689935K now JC-
404739L), 06 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Jun 2011)

Hav Ram Kawal Pal (No. 13690029Y now JC-404743N),
20 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Jun 2011)

Hav Tarsem Lal Raina (No. 13690031W now JC-404750K),
20 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Jun 2011)

Hav Gajendra Bahadur Singh (No. 13694272N now JC-
404745Y), 14 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 05 Jun 2011)

Hav Mahendra Prasad (No. 13694410K now JC-404747K),
14 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 12 Jun 2011)

Hav Kailash Nath Tripathi (No. 13690043L now JC-
404746F), 27 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 12 Jun 2011)

Hav Balister Singh (No. 13690056H now JC-404748M),
27 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 15 Jun 2011)

Hav Balwant Singh (No. 13691440W now JC-404749P),
19 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 17 Jun 2011)

Hav Kothalkar Arun Baliram (No. 13692765W now JC-
404764K), 24 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 19 Jun 2011)

Hav Praveen Kumar Singh Tomar (No. 13690287Y now
JC-404763F), 07 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 19 Jun 2011)

Hav Naveen P (No. 13693105L now JC-404752P), 19 Jul
2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 23 Jun 2011)

Hav Anek Pal Singh (No. 13690057L now JC-404751M),
14 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 23 Jun 2011)

Hav Raja Ram G (No. 13693572H now JC-404753X),
19 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 25 Jun 2011)

Hav Alhad Rajaram Gondane (No. 13693319F now JC-
404760N), 01 Jul 2011*

Hav Ramesh Prasad (No. 13694462A now JC-404756L),
14 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Jul 2011)

Hav Abhay Kumar Jauhari (No. 13694533W now JC-
404757N), 14 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Jul 2011)

Hav Jai Singh Kulhari (No. 13692146H now JC-404759Y),
09 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Jul 2011)

Hav Oma Ram (No. 13691461M now JC-404758W), 19 Jul
2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Jul 2011)

Hav Jang Bahadur (No. 13692289H now JC-404761W),
06 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Jul 2011)

Hav Kundrakpam Dhanajit Singh (No. 13691270X now
JC-404766P), 01 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Jul 2011)

Hav Rudra Datt (No. 13694535F now JC-404767X),
29 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 03 Jul 2011)

Hav Mahesh Chandra Sharma (No. 13691151F now JC-404768A), 12 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 08 Jul 2011)

Hav Gulab Chand (No. 13687990F now JC-404762Y), 07 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 10 Jul 2011)

Hav Ajimon KC (No. 13690360M now JC-404769H), 07 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 10 Jul 2011)

Hav Sukhapati Prasad Dixit (No. 13691404L now JC-404770X), 12 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 14 Jul 2011)

Hav Sham Singh (No. 13690604P now JC-404771A), 07 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 17 Jul 2011)

Hav Jitender Kumar Kaundal (No. 15612241W now JC-404772H), 03 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 27 Jul 2011)

Hav Pritam Singh (No. 13690080Y now JC-404773L), 23 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 27 Jul 2011)

Hav Indra Mohan Thakur (No. 13690356K now JC-404774N), 23 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 27 Jul 2011)

Hav Harpal Singh (No. 13691418L now JC-404775W), 05 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 28 Jul 2011)

Hav Gopalakrishnan V (No. 13693648X now JC-404776Y), 20 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 30 Jul 2011)

Hav Girish Chandra (No. 13691600L now JC-404777F), 01 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 31 Jul 2011)

Hav Abbal Chand (No. 13690098P now JC-404780F), 07 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)

Hav Radhey Shyam (No. 13690118X now JC-404781K), 07 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)

Hav Ram Prasad (No. 13689998M now JC-404778K), 16 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)

Hav Purshotam Lal (No. 13690703X now JC-404782M), 16 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)

Hav Rajesh Kumar (No. 13691358F now JC-404785A), 12 Aug 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)

Hav Raj Kumar (No. 13693543N now JC-404779M), 03 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)

Hav Prithipal Singh (No. 13691302P now JC-404783P), 09 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)

Hav Hans Raj (No. 13691527X now JC-404784X), 01 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)

Hav Manmohan Singh (No. 13691608X now JC-404786H), 01 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2011)

Hav Vijai Pal (No. 13690148P now JC-404787L), 15 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 02 Aug 2011)

Hav Prawain Kumar Sinha (No. 13689872M now JC-404788N), 07 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 05 Aug 2011)

Hav Kewal Singh (No. 13690186L now JC-404789W),
15 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 14 Aug 2011)

Hav Ashok Chandra Joshi (No. 13690205L now JC-
404790L), 19 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 14 Aug 2011)

Hav Suresh Chandra Mandaloi (No. 13694793F now JC-
404803X), 01 Sep 2011

Hav Ram Niwas Singh (No. 13694983N now JC-404804A),
01 Sep 2011

Hav Shanker Lal Saini (No. 13692089M now JC-404799A),
01 Sep 2011

Hav Shiv Prasad Tripathi (No. 13692580P now JC-
404802P), 01 Sep 2011

Hav Hayat Singh (No. 13693429W now JC-404792W),
03 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Sep 2011)

Hav Shishupal Singh Indolia (No. 13693324M now JC-
404793Y), 03 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Sep 2011)

Hav Vinod Kumar (No. 13690407M now JC-404795K),
05 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Sep 2011)

Hav Brij Paul (No. 13691591P now JC-404798X), 06 Sep
2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Sep 2011)

Hav Lal Singh (No. 13690717X now JC-404800K), 06 Sep
2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Sep 2011)

Hav Ubarhande Gajanan (No. 13690867N now JC-
404801M), 06 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Sep 2011)

Hav Ram Singh (No. 13691874W now JC-404797P),
12 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Sep 2011)

Hav Amar Singh (No. 13691046L now JC-404796M),
13 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Sep 2011)

Hav Dev Raj Verma (No. 13690259M now JC-404794F),
15 Sep 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Sep 2011)

To be Nb Sub (RT)

Nb Sub (RT) Mukesh Kumar Tiwari (No. 404349H now
JC-404349H), 06 Sep 2008

Nb Sub (RT) Mukesh Kumar (No. 404574X now JC-
404574X), 11 Jan 2010

Nb Sub (RT) Ishwar Dayal Pandey (No. 404621K now
JC-404621K), 05 Jul 2010

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Md Firoj Khan (No. 15359810L now JC-
404702K), 01 Apr 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 13 Jul 2010)

Hav (Clk) Vinod Kumar Sharma (No. 13690843K now JC-
404713W), 02 Apr 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Apr 2011)

Hav (Clk) Lad Dhanaji Pundlik (No. 13690902L now JC-
404714N), 09 Apr 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Apr 2011)

Hav (Clk) Shiv Baran Singh (No. 13690920N now JC-
404722X), 17 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Apr 2011)

Hav (Clk) Ram Kumar Mehta (No. 13691000H now JC-
404726N), 27 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 May 2011)

Hav (Clk) Tonde Rajendra Hari Bhau (No. 13691060X
now JC-404727W), 25 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 May 2011)

Hav (Clk) Khatib Sadik Saheb Hassan Saheb
(No. 13691065W now JC-404754A), 08 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allces wef 01 Jul 2011)

Hav (Clk) Sadhananda Sethi (No. 2482272K now JC-404755H), 09 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2011)

Hav (Clk) Bhim Sen Baghel (No. 13690838Y now JC-404791N), 01 Sep 2011

To be Nb Sub (SKsT)

Hav (SKT) Ramesh Chandra (No. 13693147X now JC-404712N), 01 Mar 2011

Hav (SKT) Nilamani Nayak (No. 13693437P now JC-404732F), 11 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 May 2011)

Hav (SKT) Umed Singh (No. 13692027M now JC-404733K), 09 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 May 2011)

SUBHABARTA KARMAKAR
Under Secy

No. 117, dated 14th February 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

MADRAS ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Rank/Trade and Name (Army No. now JC No.), Date of Promotion/St of seniority without effect on pay and allces

Hav (GD) Kota Karunakar Reddy (No. 15306391X now JC-310090Y), 02 Jun 2011/01 Jun 2011*

Hav (GD) Pradeep MG (No. 15306418K now JC-310094P), 01 Jul 2011/01 Jul 2011

Hav (GD) Isai Sudhakara Rao (No. 15306473A now JC-310095X), 01 Jul 2011/01 Jul 2011

Hav (GD) Bathula Krishnudu (No. 15306485P now JC-310096A), 01 Jul 2011/01 Jul 2011

Hav (GD) P Petha Perumal (No. 15306512N now JC-310097H), 01 Jul 2011/01 Jul 2011

Hav (GD) Anu Kumar KA (No. 15306641N now JC-310098L), 01 Jul 2011/01 Jul 2011

Hav (GD) Ragupathy MS (No. 15306656W now JC-310099N), 01 Jul 2011/01 Jul 2011

Hav (GD) Vinodan P (No. 15320739M now JC-310100X), 18 Jul 2011/01 Jul 2011#

Hav (GD) Savadala Raja Rao (No. 15321062Y now JC-310101A), 07 Jul 2011/01 Jul 2011#

Hav (GD) Lijish Kumar N (No. 15321075W now JC-310102H), 01 Jul 2011/01 Jul 2011

Hav (GD) Parashuram (No. 15321917W now JC-310103L), 07 Jul 2011/01 Jul 2011#

Hav (GD) Bikrant Tete (No. 15329110H now JC-310104N), 27 Jul 2011/01 Jul 2011#

Hav (GD) Gokuldas K (No. 15331248W now JC-310105W), 01 Jul 2011/01 Jul 2011

Hav (GD) Loitong Bam Henery Singh (No. 15332457A now JC-310106Y), 19 Jul 2011/01 Jul 2011#

Hav (GD) Sajesh P (No. 15320045M now JC-310111K), 01 Aug 2011/01 Aug 2011

Hav (GD) K Natarajan (No. 15301126X now JC-310114X), 01 Sep 2011/01 Sep 2011

Hav (GD) Abraham Jacob (No. 15303980H now JC-310115A), 01 Sep 2011/01 Sep 2011

Hav (GD) Dilip Kumar K (No. 15306712K now JC-310116H), 01 Sep 2011/01 Sep 2011

Hav (GD) Yousef R (No. 15318531L now JC-310117L), 01 Sep 2011/01 Sep 2011

Hav (GD) Nagaraju Banala (No. 15321871Y now JC-310118N), 01 Sep 2011/01 Sep 2011

Hav (GD) Nankhoo Singh Yadav (No. 15306875X now JC-310123Y), 01 Oct 2011/01 Oct 2011

Hav (GD) T Manickavasagan (No. 15306770N now JC-310124F), 01 Oct 2011/01 Oct 2011

Hav (GD) Shivaprakash KV (No. 15306791K now JC-310125K), 25 Oct 2011/01 Oct 2011@

Hav (GD) Santhosh A (No. 15306792M now JC-310126M), 01 Oct 2011/01 Oct 2011

Hav (GD) Kusha KB (No. 15306819Y now JC-310128X), 01 Oct 2011/01 Oct 2011

Hav (GD) S Muthu Krishnan (No. 15306830X now JC-310130P), 01 Oct 2011/01 Oct 2011

Hav (GD) K Ananthan (No. 15306903Y now JC-310131X), 19 Oct 2011/01 Oct 2011@

Hav (GD) Poovarasana N (No. 15306997F now JC-310132A), 01 Oct 2011/01 Oct 2011

Hav (GD) Suriboyina V Reddy (No. 15307017F now JC-310133H), 01 Oct 2011/01 Oct 2011

Hav (GD) Narayana Rao Buragana (No. 15307233P now JC-310134L), 01 Oct 2011/01 Oct 2011

Hav (GD) Shashikant Nagekar (No. 15307275F now JC-310135N), 13 Oct 2011/01 Oct 2011@

Hav (GD) Ravada Babu Rao (No. 15307325F now JC-310137Y), 01 Oct 2011/01 Oct 2011

Hav (GD) S Prem Binu (No. 15307445A now JC-310138F), 07 Oct 2011/01 Oct 2011@

Hav (GD) RB Vijayakumar (No. 15307501N now JC-310139K), 01 Oct 2011/01 Oct 2011

* (Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allces)

(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allces)

@(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allces)

VIMAL
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 118, dated 15th February 2012—The President is pleased to make the following Appointments/Promotions :—

To be Sub Master Tech Opto Elect

Sachitra Nanda Jena (JC-760266H), 01 Oct 2011

To be Sub Master Tech Comm

Lendave Vishnu Ganga Ram (JC-760048K), 08 Oct 2001/01 Oct 2011*

Surinder Singh (JC-760131F), 01 Oct 2011

Subhash Chand (JC-760273Y), 01 Nov 2011

Samarasam G (JC-760274F), 01 Nov 2011

To be Sub Master Tech SA

Arun Kumar (JC-760284L), 21 Oct 2011/01 Oct 2011*

Manoj Kumar (JC-760291F), 05/Oct 2011/01 Oct 2011*

To be Sub Master Tech B Veh

Varada Viswanadha Rao (JC-760024A), 02 Sep 2011/01 Sep 2011*

Mantu Ghosh (JC-760040X), 02 Nov 2011/01 Nov 2011*

Ramesh Chander (JC-760236P), 01 Nov 2011

Ranjeet Singh (JC-760235H), 01 Nov 2011

Kamaraj VP (JC-760032Y), 16 Nov 2011/01 Nov 2011*

Mane Bharat Sakharam (JC-760039H), 08 Nov 2011/01 Nov 2011*

To be Sub Welder

Jitendra Sharma (JC-763851N), 01 Sep 2011

To be Sub Supporting Staff (ER)

Dalbir Singh Nanapuri (JC-764019M), 03 Oct 2011/01 Oct 2011*

*Gtd ante dated seniority

To be Sub Master Tech Elect

Subhash Singh (JC-760083M), 14 Nov 2011/01 Nov 2011*

Brajesh Kumar Singh (JC-760034P), 01 Nov 2011

Sanjay Upadhyay (JC-760044N), 14 Oct 2011/01 Oct 2011*

D C Pratap Kumar (JC-760047P), 13 Oct 2011/01 Oct 2011*

To be Sub Master Tech B Veh

Ramesh Chandra Gouda (JC-760037X), 01 Nov 2011

Gautam Kumar Manik (JC-760317L), 01 Nov 2011

Gopal Chandra Bhounik (JC-760034K), 01 Nov 2011

Waghmare Pramod Sopanrao (JC-760041A), 01 Nov 2011

To be Sub Welder

Kameshwar Singh (JC-763887M), 01 Nov 2011

To be Sub Auto Tech Elect

Deepak Das (JC-764140A), 01 Dec 2011

To be Sub Auto Tech B Veh

Bhadra Kanta Borah (JC-764040P), 01 Nov 2011

Jai Mangal Singh (JC-764041X), 01 Nov 2011

Birbal Rai (JC-764043H), 01 Nov 2011

To be Sub Master Tech SA

Ashok Kumar (JC-760285N), 01 Nov 2011/01 Oct 2011*

K Udhayasuriyan (JC-760286W), 24 Oct 2011/01 Oct 2011*

Iqbal Singh (JC-760292K), 18 Oct 2011/01 Oct 2011*

*Gtd ante dated seniority

To be Sub SKT

Shashi Kant Singh (JC-764695F), 01 Nov 2011

Bhola Nath Ghosh (JC-764678F), 26 Nov 2011/01 Oct 2011*

Bhagirath Prasad Khandal (JC-765004W), 07 Dec 2011/01 Dec 2011*

Dula Ram (JC-765006F), 05 Dec 2011/01 Dec 2011*

Mool Chand (JC-765022Y), 01 Dec 2011

Ramesh Chand (JC-763597P), 01 Mar 2011
 Kuldeep Singh (JC-764607A), 13 Sep 2011/01 Sep 2011*
 Panchi Lal (JC-764879A), 10 Dec 2011/01 Dec 2011*
 To be Sub AVN Tech AEN
 JN Ramesh Madio (JC-762107K), 17 Nov 2011/01 Nov 2011*
 Gautam Kakati (JC-761772A), 12 Nov 2011/01 Nov 2011*
 To be Sub Tech SA
 SR Pandurang (JC-763487A), 25 Oct 2011/01 Sep 2011*
 To be Sub DW
 Manga Ram (JC-762491W), 01 Dec 2011
 Mohan Lal (JC-762619W), 01 May 2011
 To be Sub Clk (SD)
 Surendra Prasad (JC-761676L), 01 Dec 2011
 *Gtd ante date seniority

N K KASHMIRA
 Under Secy

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 119, dated 16th February 2012—The Persident is pleased to promote the following Scientists of ADE, Bangalore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2011 (F/N) as mentioned against each : —

Name, Existing Grade, Grade to which Promoted, Pay Scale of Promoted Grade

G Chandraprakash, Sc 'F', Sc 'G', Rs 37400—67000 + 10000 With Special Pay Rs 4000

S Sampath Kumar, Sc 'F', Sc 'G', Rs 37400—67000 + 10000 With Special Pay Rs 4000

Dr. V Ramachandra, Sc 'F', Sc 'G', Rs 37400—67000 + 10000 With Special Pay Rs 4000

V Ashok Rangan, Sc 'F', Sc 'G', Rs 37400—67000 + 10000 With Special Pay Rs 4000

LN Raghavendra, Sc 'E', Sc 'F', Rs 37400—67000 + 8900
 Sreekala Kumary SI, Sc 'E', Sc 'F', Rs 37400—67000 + 8900

Prakash Ballabh, Sc 'E', Sc 'F', Rs 37400—67000 + 8900

Dr. AM Nageswara Yogi, Sc 'E', Sc 'F', Rs 37400—67000 + 8900

Shashikanth CC, Sc 'E', Sc 'F', Rs 37400—67000 + 8900

SM Manjunath, Sc 'E', Sc 'F', Rs 37400—67000 + 8900

L Soosairaj, Sc 'E', Sc 'F', Rs 37400—67000 + 8900

Premila CM, Sc 'E', Sc 'F', Rs 37400—67000 + 8900

R Srinivasan, Sc 'E', Sc 'F', Rs 37400—67000 + 8900

K Selvaraj, Sc 'E', Sc 'F', Rs 37400—67000 + 8900

Mahesh M, Sc 'D', Sc 'E', Rs 37400—67000 + 8700

Satpal Singh Tomar, Sc 'D', Sc 'E', Rs 37400—67000 + 8700

Murthy, Sc 'D', Sc 'E', Rs 37400—67000 + 8700

M Hari Prasad, Sc 'D', Sc 'E', Rs 37400—67000 + 8700

Rathymol KR, Sc 'D', Sc 'E', Rs 37400—67000 + 8700

AR Sateesh Kumar, Sc 'D', Sc 'E', Rs 37400—67000 + 8700

SV Yamuna, Sc 'D', Sc 'E', Rs 37400—67000 + 8700

Mohd Shahid, Sc 'D', Sc 'E', Rs 37400—67000 + 8700

Christina Mary CE, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Sajeed Navas O, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Shiba Hizkial, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Sugnyani Alur, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Kiran J, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Chandrcyi Subhas Ghosh, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Abhishek Mathur, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Akhilesh Kumar Jha, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Parvathi UM, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

R Thogaivani, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Vijayvittal P Nadagouda, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Jayashree Hegde, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

R Girish, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

A Sudhas Albin, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Manu Jain, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Hema KS, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

A Vadivelan, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Ravishankar BN, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Sufal Chandra Swar, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Sanjay Kumar Yadava, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Bineshkumar Kanakan, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Selvanayaki K, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

BM Somanatha, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Mohit Kumar Garg, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Meshram Devendra Maniram, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Devesh Sharma, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Sangeetha Singhal, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

Suraj Chaurasiya, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

G Magesh, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

K Vijay Anand, Sc 'C', Sc 'D', Rs 15600—39100 + 7600

PRADEEP KUMAR
Dy Dir (Pers)

ARMY BRANCH

No. 120, dated 17th February 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

CORRIGENDUM

Lt Col to be Substantive Col (By Selection)

For

(IC-43410) Deepak De, Inf, 01 May 2007

Read

Blank

T K DAS
Dy Dir
MS-8A